

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2019-फाल्गुन 29, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

फा0 क्रमांक 2031/2019/इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 06 जिलों (कलेक्टर, दतिया, टीकमगढ़, उमरिया, कटनी, जबलपुर, खरगौन) के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी के रूप में लोकसभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

विधि विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये पत्रों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	पत्र क्रमांक	दिनांक
1	दतिया	211	25.02.2019
2	टीकमगढ़	402	11.03.2019
3	उमरिया	271	11.03.2019
4	कटनी	203	08.02.2019
5	जबलपुर	485	12.03.2019
6	खरगौन	2723	12.03.2019

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दतिया (M0950)

दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने वाले शासक प्रस्ताव

कार्यकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का पता	सेवा सं. एवं का नाम	अन्य जिले विशेष कार्यवाहक दंडाधिकारी शक्तियां प्रदत्त की जाने पर प्रस्तावित है।
श्री दीनेश शंकर	असहय उच्चा अधिकारी	असहय उच्चा अधिकारी कार्यालय, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री एम.के. कोल	प्रशिक्षण	आई.टी.आई. विधानसभा-22 दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री हेमन्त कुशवाह	जिला सयोजक	मार्क्स जाति कल्याण विभाग दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री हीरालाल उन्वौरिया	एस.डी.ओ.	पी.व.आई.ओ. दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री धरमचंदराज सुमन	उद्यानिकी विभाग अधिकारी	उद्यानिकी विभाग, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री ओमकार सिंह यादव	उद्यानिकी अधिकारी	उद्यानिकी विभाग, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री यश कुमार सिंह	प्रभारी सहाय संचालक	उद्यानिकी विभाग दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री आर.के. शर्मा	उप संचालक	किसान कल्याण विभाग, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री राजीव वशिष्ठ	सहाय संचालक	किसान कल्याण विभाग, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री सुकेश मोषा	संज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 700000000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री राधिका प्रसाद	बीफटेकनीशियन	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री रूपेश जैन	वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री राजीव रंजन	वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री आर.के. गोस्वामी	सचिव कृषि उपज मंडी	कृषि उपज मंडी कार्यालय, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री कृष्ण कुमार शर्मा	मंडी सचिव	कृषि उपज मंडी कार्यालय, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री बालू सिंह निरंजन	मंडी सचिव	कृषि उपज मंडी कार्यालय, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री अक्षय सिंह	वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री एजीत चौहान	वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री अनिल कुमार सिंह	वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री आर.के.एस. तोमर	प्रधान वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री योगेश चन्द रिखारी	तकनीकी अधिकारी	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री प्रशांत गुप्ता	वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री डी.एस. सिन्धु	उपसहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	किसान कल्याण विभाग दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री एस.एस. सिंह	एस.डी.ओ.	किसान कल्याण विभाग दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री ली.एस. शेरख	उप परियोजना संचालक आल्मा	किसान कल्याण विभाग दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री शारदा शर्मा	एस.डी.ओ.	किसान कल्याण विभाग दतिया, 002200000000	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया

कार्यका नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम या आवासीय नंबर	संचालक का नाम	क्षेत्र विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पदस्थापित की जाना प्रस्तावित है।
श्री अशोक त्रिपाठी	डी०पी०सी०	जिला समन्वय सर्व शिमा आधिकारी 9425175692	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री जवाहर सिंह यादव	एआई०	जिला सर्व शिमा कार्यालय अधिपति 9425667774	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री श्रीतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय इन्टरगार्ड 8101073078	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री संजय भट्ट	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय इन्टरगार्ड 9022260992	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री एके० गौतम	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय दलिया 8435558980	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री ओमप्रकाश तिवारी	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय दलिया 8744466664	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री अनुरोध श्रीमरस्वत	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय दलिया 8581203996	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री अशोक श्रीवासवत	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय बडौनी 8898848228	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री विश्राम बघेल	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय भाण्डेर 8109699088	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री मोहनलाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय भाण्डेर 8425456345	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय भाण्डेर 9683379300	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री राजेन्द्र सिंह कुमार	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय सेवदा 8926883089	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री अजयवीरग शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक	लक्ष्मील कार्यालय सेवदा 9893989461	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री अवधेश विघाठी	मुख्य नगर प्रालिका अधिकारी	नगरपालिका बडौनी 9826883579	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री नारायण सिंह गुर्जर	मुख्य नगर प्रालिका अधिकारी	नगरपालिका भाण्डेर 8103928582	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री आर०बी०यादव	मुख्य नगर प्रालिका अधिकारी	नगरपालिका सेवदा 9425703858	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री पिपुष माली	प्रबंधक कोऑपरेटिव बैंक	नगरिक आपूर्ति निगम 8717968908	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री विनय चतुर्वेदी	जिला समन्वय अधिकारी	नेहरू युवा केंद्र 9406684572	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री के०जी० दविवेदी	उप संचालक	पर्यु चिकित्सा सेवार्थ कार्यालय 9300969851	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री जी०दास	सिविल सर्जन	पर्यु चिकित्सा सेवार्थ कार्यालय 8425572387	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री आर०के० हनुमंत	कार्यपालन यंत्री	पी०आई०यु० 9425175692	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री राजेश श्रीवासवत	कार्यपालन यंत्री	पी०एच०डी० 9827887676	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री राजनप्रस आलौ	सहायक अधीक्षक	श्री अभिलेख दलिया 999929115	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री आर०के० जैन	सहायक प्रबंधक	म०प्र०या०सडक प्राधि० परियोजना 9825211322	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री एके० जैन	सहायक प्रबंधक	म०प्र०या०सडक प्राधि० परियोजना 982547307	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री राजेश त्रिपाठी	महाप्रबंधक	म०प्र०या०सडक प्राधि० परियोजना 9825547307	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री आर०के० त्रिपाठी	सहायक प्रबंधक	म०प्र०या०सडक प्राधि० परियोजना 9993308614	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री अनिल कुमार अवस्थी	सहायक संचालक	म०प्र०या०सडक कार्यालय 7999975716	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
श्री राजेश कुमार पाठक	सहायक मत्स्य अधिकारी	मत्स्य पालन विभाग 9425520706	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया
		मत्स्य पालन विभाग 982557169	स्थायी	संपूर्ण जिला दलिया

क्र.सं.	कारि का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम व मोबाइल नंबर	सेवा सं० दर्ज का नाम	क्षेत्र जिसके कार्यपालक दंडाधिकारी भक्तिया प्रदल को बनाया प्रस्तावित है।
90	श्री अरविन्द उपाध्याय	डी०पी०ओ०	महिला एवं बाल विकास 0099829711	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
91	श्री सनील शर्मा	सी०डी०पी०ओ०	महिला एवं बाल विकास 0800288197	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
92	श्री हरनोद शर्मा	सी०डी०पी०ओ०	महिला एवं बाल विकास 0820230038	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
93	श्री हेमराज कोरी	एस०डी०ओ०	लोक निर्माण विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
94	श्री मनोज कुमार जैन	सहा० प्रियोजना यंत्री	लोक निर्माण विभाग 70091924022	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
95	श्री अमित कुमार व्यास	परियोजना यंत्री	लोक निर्माण विभाग 8890694296	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
96	श्री पारस सिंह	एस०डी०ओ०	लोक निर्माण विभाग 8106570818	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
97	श्री नीरव अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
98	श्री धीरेन्द्र शर्मा	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
99	श्री महेश चन्द्र शर्मा	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
100	श्री अनिल सिंह	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 741887480	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
101	श्री रामसेक शर्मा	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 799849763	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
102	श्री राजेन्द्र सिंह परिहार	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
103	श्री जीपी० जादव	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
104	श्री आदित्य कुमार पुरोहित	शाखा प्रबंधक वेयरहाउस	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
105	श्री देवेंद्र सिंह	वन परिसर अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 8126166160	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
106	श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव	उप-वनमंडलाधिकारी	वन विभाग 9424791783	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
107	श्री अरविन्द भट्टकारिया	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग 9424791782	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
108	श्री एस०के० श्रीवास्तव	सी०टी०आई०	वन विभाग 9424791851	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
109	श्री निलय गोस्वामी	सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र	राष्ट्रीयकर विभाग 9877951444	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
110	श्री मनोज व्यास	सहा० प्राध्यापक हिंदी	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9425482373	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
111	श्री रमेश भाद्रवज	सहा० प्राध्यापक इतिहास	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 8109315478	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
112	श्री अरविन्द यादव	सहा० प्राध्यापक गणित	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 8874833955	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
113	श्री लखन सिंह शाक्य	सहा० प्राध्यापक संस्कृत	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9074730273	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
114	श्री अभय कुमार शहल	सहा० प्राध्यापक प्राणी विज्ञान	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9424308696	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
115	श्री ए०के० गुप्ता	प्राध्यापक अर्थशास्त्र	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9425339215	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
116	श्री सजय श्रीवास्तव	सहा० प्राध्यापक अर्थशास्त्र	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9425618175	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
117	श्री एस०अर० लहोरीया	सहा० प्राध्यापक भौतिक	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9425721596	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
118	श्री अर०अर० वर्मा	सहा० प्राध्यापक वाणिज्य	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9426876771	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
119	श्री विशार अरारा	प्राध्यापक रसायन	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9479318175	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
120	श्री राजीव सक्सेना	सहा० प्राध्यापक	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 966925706	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
121	श्री शिव सिंह	अध्यपाल श्री० कल्या महाविद्यालय	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 975165281	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
122	श्री शिव सिंह	अध्यपाल श्री० कल्या महाविद्यालय	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9820841288	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
123	श्री शिव सिंह	अध्यपाल श्री० कल्या महाविद्यालय	श्री० स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9820859588	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया

5

कार्य का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम व मोबाइल नंबर	सेवा सठ वर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
2	3	4	5	6
श्री. एस.एस.टी. दीक्षित	प्राध्यापक इन्चार्ज	श्री. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया 9977929066	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री. एस.के. मिश्रा	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग 9773887486	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री. आनू खरे	प्रबंधक कोऑपरेटिव बैंक	सहाकारिता कार्यालय 9426112867	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया
श्री. नारायण सिंह हाडा	अंकेक्षण	सहाकारिता कार्यालय 8305658198	स्थायी	संपूर्ण जिला दतिया

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

क.-निर्वा.-लो.स.-2019-366

टीकमगढ़, दिनांक 8 मार्च 2019

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सुचारु संचालन हेतु 06-टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र- 44-जतारा में निम्नानुसार कॉलम नंबर 2 में अंकित अधिकारियों को कॉलम नं. 1 में अंकित सेक्टर का सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सेक्टर अधिकारी सेक्टर में भ्रमण कर संलग्न चैक लिस्ट अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सेक्टर क्रमांक एवं नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	सेक्टर में मतदान केन्द्रों की संख्या	सेक्टर में मतदान केन्द्रों की लोकेशन संख्या
1	2	5	4	3
01 जेवर	श्री शरदकान्त पांडेय उपयंत्री लो. नि.वि. टीकमगढ़ 7089564255	105 प्राथमिक शाला जेवर	9	6
		106 माध्यमिक शाला जेवर		
		107 माध्यमिक शाला पूर्वी भाग जेवर		
		108 माध्यमिक शाला पश्चिमी भाग जेवर		
		109 नवीन कन्या प्राथमिक शाला जेवर		
		110 प्राथमिक शाला विशानपुरा		
		101 ग्राम स्वराज भवन उपरारा खास		
		102 माध्यमिक शाला उपरारा खास कक्ष क्रमांक 1		
		103 नवीन प्राथमिक शाला नई बस्ती उपरारा		
		2 हरकनपुरा		
112 ग्राम स्वराज भवन हरकनपुरा				
104 प्राथमिक शाला भवन विजरावन				
113 प्राथमिक शाला वनपुरा				
96 माध्यमिक शाला पूर्वी भाग मैदवारा				
97 माध्यमिक शाला पश्चिमी भाग मैदवारा				
98 कन्या प्राथमिक शाला मैदवारा				
99 शास.हाईस्कूल मैदवारा				
100 प्राथमिक शाला तगेडी				
03 स्यावनी	श्री शेख मुबारक, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ टीकमगढ़ 9893955716		74 प्राथमिक शाला दरियापुरा	8
		75 माध्यमिक शाला कछियागुड़ा		
		76 प्राथमिक शाला कछियागुड़ा		
		90 माध्यमिक शाला नुना		
		91 हाईस्कूल नुना		
		92 पंचायत भवन नुना		
		94 माध्यमिक शाला स्यावनीखास		
		95 प्राथमिक शाला स्यावनीखास कक्ष 2		

03	श्री डी.के. मिश्रा, जिला आयुष अधिकारी टीकमगढ़ 9926976379	85 प्राथमिक शाला महवाचक्र 3	7	6
		86 पंचायत भवन महवाचक्र 3		
		87 प्राथमिक शाला महवाचक्र 1		
		88 नवीन माध्यमिक शाला महवाचक्र 1		
		89 प्राथमिक शाला महवाचक्र 4		
		93 प्राथमिक शाला भवन मोरपारिया		
		84 प्राथमिक शाला भवरई उदयपुरा		
05 खरौ	श्री जमेश सोनी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद लिधौरा 9926647580	77 प्राथमिक शाला सुनरई	7	6
		78 प्राथमिक शाला वारी		
		79 प्राथमिक शाला जरुआ		
		80 बालक माध्यमिक शाला खरौ पूर्वी		
		81 कन्या प्राथमिक शाला खरौ		
		82 प्राथमिक शाला खरौ		
		83 प्राथमिक शाला नवीन कक्ष खरौ		
06 लिधौरा खास	श्री भरत कुमार राजवंशी, सहा. संचा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास टीकमगढ़ 9926945374	25 हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिमीभाग लिधौराखास	10	6
		26 हायर सेकेंडरी स्कूल पूर्वी भाग लिधौराखास		
		27 नगरपालिका पश्चिमी भाग लिधौरा खास		
		28 नगरपालिका पूर्वी भाग लिधौरा खास		
		29 प्राथमिक शाला लिधौराखास (भूतेश्वर)		
		30 माध्यमिक शाला नवीन कमरा लिधौराखास		
		31 प्राथमिक शाला नवीन कमरा लिधौराखास		
		32 हायर सेकेंडरी स्कूल दक्षिणी भाग कक्ष नं. 8		
		33 नवीन प्राथमिक शाला भवन लिधौरा खास		
		34 हायर सेकेंडरी स्कूल पूर्वी भाग लिधौराखास		
		35 प्राथमिक शाला लिधौराखास		
07 बराना खास	श्री रविशंकर वर्मा सहायक संत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग जतारा 8839236032	1 प्राथमिक शाला छिपरी खास कक्ष क्र. 1	9	6
		2 प्राथमिक शाला छिपरी खास कक्ष क्र. 2		
		3 नवीन प्रा शाला छिपरी		
		4 प्रा शाला अंतपुरा		
		5 प्रा शाला रानीगंज		
		23 प्राथमिक पाठशाला बरानाखास		
		24 माध्यमिक शाला बरानाखास		
		7 माध्यमिक शाला भवन लाखरीन		
		8 प्राथमिक शाला प्रतापपुरा		
		9 प्राथमिक शाला प्रतापपुरा		
08 बम्होरी खास	श्री रामकृष्ण द्विवेदी, सपथंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9425877009	10 हायर सेकेंडरी स्कूल कक्ष क्र. 2 बम्होरी	10	8
		11 बालक माध्यमिक शाला बम्होरी खास		
		12 मा0शाला भवन बस स्टैंड के पास बम्होरीखास		
		13 कन्या माध्यमिक शाला भवन बम्होरीखास		
		14 कन्या प्रा शाला भवन बम्होरी खास		
		15 कन्या प्रा शाला भवन बम्होरी खास		
		6 प्रा शाला फिरोजपुरा भाटा		
		9 शिक्षा गार्डरी शाला भवन फिरोजपुरा		
		16 प्राथमिक पाठशाला रतनगुवा अति कक्ष		
		17 माध्यमिक पाठशाला रतनगुवा खास		

सरगुवा	श्री दयाराम कुम्हार, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9993487801	20 माध्यमिक शाला भवन सरगुवा	8	6
		21 प्राथमिक पाठशाला सरगुवा		
		22 माध्यमिक शाला अपरवल		
		18 प्राथमिक पाठशाला बीरऊ		
		19 माध्यमिक शाला बीरऊ		
		44 प्राथमिक पाठशाला मातौल		
10 सतगुवा	श्री ब्रजेश अग्रवाल, सहायक अभियंता, म.प्र.वि.मं. पूर्व क्षे.कं. लि. टीकमगढ़ 9425613854	45 शिक्षा गारंटी शाला मातौल दाता का खिरक	9	7
		43 प्राथमिक पाठशाला ईशोन		
		37 माध्यमिक शाला पूर्वी भाग सतगुवा		
		38 माध्यमिक शाला पश्चिमी भाग सतगुवा		
		39 प्राथमिक शाला सतगुवा		
11 पैतपुरा	श्री मनीष दोहरे, उपयंत्री विद्युत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीकमगढ़ 8874311161	40 शासकीय प्राथमिक शाला बरियन मुहल्ला	8	5
		41 शासकीय प्राथमिक शाला सतगुवा खास		
		42 शासकीय प्राथमिक शाला सतगुवा उगड़		
		46 माध्यमिक शाला शाहपुर		
		47 प्राथमिक शाला शाहपुर		
		232 प्राथमिक शाला विजरोटा		
		48 माध्यमिक शाला पैतपुरा		
		49 स्वराज भवन पैतपुरा		
		50 प्राथमिक शाला पैतपुरा		
		51 माध्यमिक शाला पैतपुरा		
12 चंदेरा	श्री हर्षवर्धन सिंह मुबेल, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग जतारा 9630881031	53 प्राथमिक शाला फतेह का खिरक	9	5
		52 प्राथमिक शाला रूपगंज		
		35 प्राथमिक शाला गोटेट खास		
		36 माध्यमिक शाला गोटेट खास		
		54 माध्यमिक शाला उत्तरी भाग चंदेराखास		
		55 माध्यमिक शाला पश्चिमी भाग चंदेराखास		
		56 माध्यमिक शाला दक्षिणी भाग चंदेराखास		
		57 माध्यमिक शाला उत्तरी भाग चंदेराखास		
		58 प्राथमिक शाला चंदेराखास पूर्वी भाग		
		59 प्राथमिक शाला चंदेराखास पश्चिमी		
13 सगरवारा	श्री हरगोविन्द कुम्हार, सहायक यंत्री, बान सुजारा बांध टीकमगढ़ 8319634007	60 हायर सेकेंडरी स्कूल पूर्वी भाग चंदेराखास	8	7
		61 हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिमी भाग चंदेराखास		
		62 कन्या हाईस्कूल चंदेराखास		
		65 प्राथमिक शाला सगरवारा		
		66 पंचायत भवन सगरवारा		
		67 प्राथमिक शाला उदयपुरा		
		68 माध्यमिक शाला उदयपुरा		
		69 प्राथमिक शाला मझोरी		
70 प्राथमिक शाला खुरमपुर				
83 प्राथमिक शाला पतारी				
64 प्राथमिक शाला पतारे का खिरक, पतारी				

बहाड़ी बुजुर्ग	श्री बाई.के. गुप्ता, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9425774010	117 प्राथमिक शाला पहाड़ी बुजुर्ग	9	7
		118 नवीन पंचायत भवन पहाड़ी बुजुर्ग		
		72 नवीन प्राथमिक शाला वीरपुरा		
		73 प्राथमिक शाला उत्तरी भाग वीरपुरा		
		114 प्राथमिक शाला पचीरा		
		115 प्राथमिक शाला बावई		
		116 प्राथमिक शाला अर्नतपुरा		
		131 प्राथमिक शाला भगवंतपुरा		
		71 प्राथमिक शाला नगरी		
		15 बम्हारी कला		
124 बालक माध्यमिक शाला बम्हारीकला				
125 कन्या प्राथमिक शाला बम्हारीकला				
126 कन्या प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष				
127 प्राथमिक शाला बम्हारीकला				
128 कन्या प्राथमिक शाला बम्हारीकला				
129 हायर सेकेंड्री स्कूल बम्हारीकला				
119 प्राथमिक शाला मोथी				
120 प्राथमिक शाला टीला नरैनी				
121 प्राथमिक शाला कनेरा				
122 ईजीएस वरियन खिरक, कनेरा				
16 कलरा	श्री संतोष दुबे, उपयंत्री, बानसुजारा नहर जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 7049262614	149 प्राथमिक शाला कलरा	8	7
		150 माध्यमिक शाला कलरा		
		133 हाईस्कूल कजना		
		134 प्राथमिक पाठशाला कजना		
		135 प्राथमिक शाला पुरुषोत्तमपुरा		
		132 प्राथमिक शाला जितकोरा		
		148 प्राथमिक शाला जरया		
		130 प्राथमिक शाला निवारा		
17 सिमराखुर्द	श्री देवानंद शुक्ला, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीकमगढ़ 8795040000	140 माध्यमिक शाला परिचमी भाग सिमराखुर्द	8	6
		141 माध्यमिक शाला उत्तरी भाग सिमराखुर्द		
		142 प्राथमिक शाला सिमराखुर्द		
		143 माध्यमिक शाला मध्य भाग सिमराखुर्द		
		139 प्राथमिक शाला खरगपुरा		
		138 माध्यमिक शाला दिनऊ		
		137 प्राथमिक शाला दिनऊ		
		136 प्राथमिक शाला काकनपुरा		
18 बराना	श्री हरगोविन्द गर्ग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पलेरा 8085094411	144 प्राथमिक शाला बराना	7	6
		145 पंचायत भवन बराना		
		146 प्राथमिक शाला रतवास		
		147 पंचायत भवन रतवास		
		153 प्राथमिक शाला मवई		
		151 प्राथमिक शाला इटायली		
		152 माध्यमिक शाला इटायली		

कुड़याला	श्री शिव प्रताप सिंह, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9893919025	178 प्राथमिक शाला कुड़याला	8	6
		179 माध्यमिक शाला अतिरिक्त कक्षा कुड़याला		
		181 प्राथमिक शाला थर		
		180 प्राथमिक शाला गोवा		
		176 प्राथमिक शाला कपासी		
		177 माध्यमिक शाला कपासी		
		174 माध्यमिक शाला कछोरा		
20 खजरी	श्री मुकेश कैन, वन क्षेत्रपाल वन मण्डल बलदेवगढ़ 9424791360	175 शासकीय प्राथमिक शाला कछोरा खास	6	5
		156 माध्यमिक शाला खजरी		
		157 माध्यमिक शाला पूर्वी भाग खजरी		
		158 प्राथमिक शाला छेवला		
		154 माध्यमिक शाला भवन गड़ारी		
		155 प्राथमिक शाला जवाहरपुरा		
21 टोरिया	श्री करन सिंह बारकले, उपयंत्री, पीएचई जतारा 7000831799	173 प्राथमिक शाला दरदोरा	6	5
		169 माध्यमिक शाला नवीन भवन टोरियाखास		
		170 प्राथमिक शाला भवन टोरियाखास		
		171 माध्यमिक शाला भवन टोरियाखास		
		172 प्राथमिक शाला भवन टोरिया		
		159 पंचायत भवन खरा		
22 करौला	श्री शोभाराम सौलंकी, उप प्रबंधक जल निगम टीकमगढ़ 8889303939	160 प्राथमिक शाला भवन विजयपुर	8	6
		163 प्राथमिक शाला भवन करौला		
		164 माध्यमिक शाला भवन करौला		
		161 प्राथमिक शाला भवन गोना		
		162 पंचायत भवन गोना		
		165 प्राथमिक शाला भवन अजोखर		
		166 प्राथमिक शाला परा अतिरिक्त कक्षा		
		167 माध्यमिक शाला परा अतिरिक्त कक्षा		
23 बम्हारी अब्दा	श्री मुकेश खरे, उपयंत्री, वि०सु० म. प्र.वि.मं. टी० 9425144305	168 प्राथमिक शाला भगवतनगर	5	5
		182 माध्यमिक शाला नया भवन बम्हारीअब्दा		
		183 नवीन आंगनवाड़ी भवन बम्हारी अब्दा		
		184 शिक्षा गारटी शाला गैरा का खिरक टानगा		
		185 प्राथमिक शाला टानगा		
24 जतारा	श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जतारा 7974156728	188 प्राथमिक शाला रामनगर खुर्द	9	5
		189 कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तरी भाग		
		190 कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल दक्षिणी भाग-2		
		191 कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल दक्षिणी भाग		
		192 नगर पंचायत कार्यालय भवन जतारा		
		194 शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल		
		195 नगर पंचायत जतारा नवीन भवन		
		196 प्राथमिक शाला बालक रेस्ट हाउस के पास		
		197 प्राथमिक शाला बालक रेस्ट हाउस के पास		
		202 प्राथमिक शाला कन्या जतारा		

जतारा	कु० प्रतिभा जैन, विकासखंड अधिकारी, जनपद पंचायत जतारा 9893238925	193 हायर सेकेण्डरी स्कूल बालक उत्तरी भाग	8	7
		198 हायर सेकेण्डरी स्कूल बालक दक्षिणी भाग		
		199 हायर सेकेण्डरी स्कूल बालक पूर्वी भाग-2		
		200 हायर सेकेण्डरी स्कूल बालक पूर्वी भाग -1		
		201 शा.बालक उ.मा.वि.नवीन भवन पश्चिमी भाग		
		203 प्राथमिक शाला मचीरा		
		204 प्राथमिक शाला गांधीग्राम		
		205 प्राथमिक शाला अति० कक्ष गांधीग्राम		
26 देवराहा	श्री एम.के. शाक्य, उपयंत्री, बानसुजारा बांध टीकमगढ़ 9425762989	186 पंचायत भवन देवराहा	6	5
		187 शासकीय प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष		
		206 प्राथमिक शाला सिमरिया		
		207 प्राथमिक शाला गुडानदी		
		208 नवीन प्राथमिक शाला भवन बल्देवपुरा		
		216 प्राथमिक शाला पिपरट		
27 करमौरा	श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, उपयंत्री कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ 7893855443	209 माध्यमिक शाला करमौरा	7	6
		210 प्राथमिक शाला शिक्षा गारटी शाला सीरयाना		
		211 शासकीय नवीन प्राथ०शाला भवन कदवा		
		212 शासकीय हाई स्कूल कदवा		
		253 प्राथमिक शाला (अतिरिक्त कक्ष जरुआ		
		254 माध्यमिक शाला जरुआ		
28 बैरवार	श्री एस.बी. नायक, उपयंत्री, बान सुजारा बांध टीकमगढ़ 9450073895	217 माध्यमिक शाला बैरवार	8	7
		218 शासकीय कन्या शाला बैरवार		
		219 हाईस्कूल बैरवार पश्चिमी भाग		
		220 नवीन कन्या माध्यमिक शाला बैरवार		
		221 शा प्रा शाला भवन बदरगुडा		
		239 प्राथमिक शाला विक्रमपुरा		
		240 प्राथमिक शाला भवन कुंवरपुरा		
		241 प्राथमिक शाला बैदपुर		
29 लिधौराताल	श्री आनंद शिवहरे, वन क्षेत्रपाल, वन विभाग जतारा 9434791361	222 प्राथमिक शाला लिधौराताल	9	6
		223 शासकीय प्राथमिक शाला भवन नयाताल		
		224 शासकीय माध्यमिक शाला भवन नयाताल		
		225 प्राथमिक शाला भवन बगौरा		
		226 प्राथमिक शाला भवन अति० कक्ष बगौरा		
		227 प्राथमिक शाला शाह		
		228 प्राथमिक शाला भवन (नवीन कक्ष) शाह		
		229 प्राथमिक शाला बाजीतपुरा		
		230 शा हाई स्कूल बाजीतपुरा		

30 मुहारा	श्री उमेश प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, विद्युत सुरक्षा म.प्र.वि.मं. टीकमगढ़ 9408984797	233 शास.बालक प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष	7	5
		234 नयां हाईस्कूल भवन मुहारा		
		235 शास.बालक माध्यमिक शाला अतिरिक्त कक्ष		
		236 शास.कन्या माध्यमिक शाला अतिरिक्तकक्ष		
		237 नवीन प्राथमिक शाला सोरयाना खंदिया		
		238 मा बालक शाला भवन अति० कक्षक्र० 7 मुहारा		
		231 नवीन प्राथमिक शाला भवन गरीली		
31 चंन्द्रपुरा	श्री रघुवीर सिंह कार्यपालन यंत्री बानसुजारा नहर संभाग वन्देवगढ़ 9425111431	242 प्राथमिक शाला भवन चंदपुरा	7	6
		243 माध्यमिक शाला भवन चंदपुरा		
		244 प्राथमिक शाला कमलनगर		
		245 प्राथमिक शाला चतुरकारी		
		246 प्राथमिक शाला रामगढ़		
		247 प्राथमिक शाला हरपुरा		
		248 प्राथमिक शाला शिवपुरा		
32 हृदयनगर	श्री श्यामप्रकाश पाण्डेय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ 9893679756	250 प्राथमिक शाला हृदयनगर	7	5
		249 प्राथमिक शाला पठरा (बेर का खिरक)		
		251 प्राथमिक शाला लारखुर्द		
		252 माध्यमिक शाला लारखुर्द		
		213 माध्यमिक शाला मांची		
		214 शासकीय माध्यमिक शाला मांची अतिरिक्त		
		215 प्राथमिक शाला मांची		

रिजर्व् दल -

1. श्री सुरेश कुमार नगाईच, प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जतारा 9977457354
2. श्री बी.के. राजपूत, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पलेरा 7052620393
3. श्री ओ.पी. मिश्रा, शासकीय, पॉलीटेक्निक जतारा

क.-निर्वा.-लो.स.-2019-367

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सुचारु संचालन हेतु 06-टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र- 43-टीकमगढ़ में निम्नानुसार कॉलम नंबर 2 में अंकित अधिकारियों को कॉलम नं. 1 में अंकित सेक्टर का सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सेक्टर अधिकारी सेक्टर में भ्रमण कर संलग्न चैक लिस्ट अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सेक्टर क्रमांक एवं नाम	सेक्टर आफिसर का नाम	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	सेक्टर में मतदान केन्द्रों की संख्या	सेक्टर में मतदान केन्द्रों की लोकेशन संख्या
1	2	5	4	3
1. पहाड़ी खुर्द	श्री कृष्ण पाल सिंह जादौन, अनुविभागीय अधिकारी कृषि टीकमगढ़ 8266001282	1 प्रा.पा. कांटी खास	11	11
		2 शा.मा.शाला कांटी खास		
		3 प्रा.पा. बंधिया		
		4 पंचायत भवन, हीरानगर खास		
		5 शा.मा.शा. हीरानगर		
		6 प्राथ. पाठ. बाबरी, हीरानगर खास		
		7 प्रा.पा. पहाड़ी खुर्द		
		8 प्रा.पा. बडौराघाट		
		9 शा.प्रा.शाला सुनवाहा		
		106 प्रा. पा. गोपालपुरा		
		107 शा.प्रा.पा. राजीव गांधी शि.मि. (दुनातर), आलमपुरा		
2. अनन्तपुरा	श्री अखिलेश उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टीकमगढ़ 9399352850	52 नवीन नगर पालिका भवन केन्द्रीय विद्यालय टीकमगढ़	13	13
		10 प्रा.पा. मऊघाट		
		11 माध्यमिक शाला मऊघाट		
		12 प्रा.पा. भवन तखा		
		13 आंगनवाडी केन्द्र तखा नई बस्ती		
		14 प्रा.पा. नवीन भवन नयाखेरा		
		15 शि. गा. शा. रामनगर सेवडा		
		16 मा.शा. बीरी		
		102 प्रा.पा. अनंतपुरा		
		103 मा.शाला अनंतपुरा		
		104 प्रा.पा. बडगांव खुर्द		
		105 मा.शाला.बडगांव खुर्द		
		101 प्राथमिक पाठशाला अतिरिक्त कक्ष डुमरऊ मोटा		

टावरलाइन टीकमगढ़	कु0 आकाक्षा तिवारी, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें टीकमगढ़ 7454007590	30	कार्यालय मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पावर हाउस टीकमगढ़	14	10
		29	नगर पालिका टीकमगढ़ का निषादराज सामुदायिक भवन परानी देहरी		
		26	प्रा. पाठशाला टावर लाईन, टीकमगढ़		
		27	प्राथ. पाठशाला, टावर लाईन टीकमगढ़		
		28	प्रा.शाला का अतिरिक्त कक्ष टावर लाईन टीकमगढ़		
		33	का.पा.यंत्री लो.स्वा.या.वि. पानी की टंकी पूर्वी भाग टीकमगढ़		
		34	का.पा.यंत्री लो.स्वा.या.वि. पानी की टंकी पश्चिमी भाग टीकमगढ़		
		36	शा.प्रा.शाला गोपाल मंदिर नवीन भवन टीकमगढ़		
		31	शा.पूर्व माध्यमिक शाला गोपाल मंदिर दक्षिण भाग		
		32	पू.मा.शाला गोपालमंदिर		
		38	शा. मा. शाला. गोपाल मंदिर का दक्षिणी भाग टीकमगढ़		
		44	शा.मा. शाला (नवीन भवन) प्राकृतिक चिकित्सा (उत्तर) टीकमगढ़		
		45	शा.मा. शाला (नवीन भवन) प्राकृतिक चिकित्सा (दक्षिण) टीकमगढ़		
		37	पुराना शि.वि.वि.खं. शि.अधि.काया. दक्षिण भाग टीकमगढ़		
4. नगरभवन टीकमगढ़	कु0 स्वेता चतुर्वेदी, परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना टीकमगढ़ ग्रामीण 7389633500	35	नगर भवन टीकमगढ़	15	4
		42	नगर भवन उत्तरी भाग पिछला, टीकमगढ़		
		43	नगर भवन दक्षिणी भाग टीकमगढ़		
		39	शा.पू.मा.वि. सिद्ध.बाबा की हवेली (उत्तर) टीकमगढ़		
		40	शा.पू. मा. वि.सिद्ध, बाबा की हवेली(दक्षिणी)भाग टीकमगढ़		
		41	शा.पू.मा.वि. सिद्धबाबा की हवेली (दक्षिण) टीकमगढ़		
		47	सीनियर बेसिक स्कूल टीकमगढ़ पूर्वी भाग		
		46	माडल बेसिक स्कूल दक्षिणी भाग टीकमगढ़		
		50	माडल बेसिक स्कूल नवनिर्मित भवन (उत्तर-पूर्वी) टीकमगढ़		
		60	माडल बेसिक स्कूल (पूर्वी भाग) टीकमगढ़		
		61	माडल बेसिक स्कूल पश्चिमी टीकमगढ़		
		62	सीनियर बेसिक स्कूल (उत्तरी भाग) टीकमगढ़		
		63	सीनियर बेसिक स्कूल अतिरिक्त कक्ष टीकमगढ़		
		64	सीनियर बेसिक स्कूल दक्षिणी भाग टीकमगढ़		
65	सीनियर बेसिक स्कूल पश्चिमी भाग टीकमगढ़				

दोंगा टीकमगढ़	श्री देवेन्द्र शुक्ला, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ 9425145518	56	अनुसूचित जा. एवं अनुसूचित जन जा. छात्रावास कृषि मंडी रोड दोंगा टीकमगढ़	8	6
		57	तकनीकी महाविद्यालय दोंगा (पश्चिमी) टीकमगढ़		
		59	तकनीकी महाविद्यालय दोंगा (पश्चिमी) टीकमगढ़		
		54	तकनीकी महा. वि. दोंगा-उत्तरी टीकमगढ़		
		58	आई टी. आई. विद्यालय टीकमगढ़		
		53	मंगल भवन, टीकमगढ़		
		55	हरिजन बस्ती बाल्मीकि आश्रम, टीकमगढ़		
		51	शासकीय प्राथमिक शाला कुंवरपुरा		
6. सिविल लाइन टीकमगढ़	श्री के.के. शर्मा, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ 9753913817	66	कार्यालय सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी टीकमगढ़	12	11
		67	कार्य. अनु. अधि. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पश्चिमी भाग		
		72	प्राथमिक पाठशाला पुलिस लाइन टीकमगढ़		
		73	प्रा. पाठ. पुलिस लाइन का उत्तरी भाग टीकमगढ़		
		74	अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.या. सेवा कार्यालय टीकमगढ़		
		75	तकनीकी कक्ष अनुविभागीय अधिकारी लोकनिर्माण विभाग टीकमगढ़		
		76	सामुदायिक भवन रेस्ट हाउस के सामने टीकमगढ़		
		77	कार्यालय यंत्री लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस के बगल में		
		78	कार्य. कार्य. पा. यंत्री/संचारण/संधारण सभाग म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विधुत लिम0 टीकमगढ़		
		79	कार्यालय समाज कल्याण एवं नि.शक्त जन टीकमगढ़		
		80	पंचायत एवं समाज सेवा विभाग नवीन भवन राजेद्र अस्पताल के प्रांगण में		
		81	कार्यालय आयुष विंग (आयुर्वेद)पंचकमे/क्षार सूत्र स्पेशलाइजेशन सेन्टर टीकमगढ़		
7. जानकीबाग टीकमगढ़	श्री आलोक कुमार खरे, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ 9425342448	84	अवंती कन्या महाविद्यालय टीकमगढ़ (पूर्वी भाग)	14	9
		85	अवंती कन्या महाविद्यालय टीकमगढ़ (पूर्वी भाग)		
		86	अवंती कन्या महावि. टीकमगढ़ (दक्षिणी भाग)		
		87	अवंती कन्या महा. वि. टीकमगढ़(पश्चिमी भाग)		
		90	मा.वि. जानकीबाग उत्तरी भाग टीकमगढ़		
		91	मा. वि. जानकीबाग (दक्षिणी भाग) टीकमगढ़		
		92	कार्य. अनु. कृषि अधि.कार्यालय कृषि विभाग (उत्तरी भाग) टीकमगढ़		
		93	कार्यालय म.प.एप्रो इंडस्ट्रीज कृषि कार्यालय टीकमगढ़		
		94	कार्य-सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी टीकमगढ़		
		95	वन मण्डल अधि. कार्य. (उत्तरी भाग) टीकमगढ़		
		96	वनमण्डल अधि.कार्य. (दक्षिणी भाग) टीकमगढ़		
		99	शा.मा.शाला मामीन		
		98	शा.प्रा. शाला मामीन		
100	प्रा.पा. नारगुडा खास				

8. नज़रबाग टीकमगढ़	श्रीमति ऋजुता चौहान सहायक संचालक म0बा0वि0 टीकमगढ़ 8989914837	68	नज़रबाग कन्या उच्च मा. वि. दक्षिण टीकमगढ़	10	5
		48	कन्या माध्यमिक शाला का नवीन भवन कक्ष 1 नज़रबाग टीकमगढ़		
		49	शा.पू.मा.शा. शिशु मंदिर, टीकमगढ़		
		69	मानस मेच राजेंद्र पार्क टीकमगढ़		
		70	उ. मा. वि. नज़र बाग का अतिरिक्त नवीन भवन टीकमगढ़		
		71	शा0 कन्या उच्चतर माध्यमिक विध्यालय नज़रबाग का अतिरिक्त नवीन भवन टीकमगढ़		
		82	नवीन भवन कन्या प्राथ. शाला नज़र बाग कक्ष क्र. 1 टीकमगढ़		
		83	नवीन भवन कन्या माध्यमिक शाला नज़र बाग कक्ष क्र. 5 टीकमगढ़		
		88	शा.पू.प्रा.पाठशाला का नवीन भवन नज़र बाग टीकमगढ़		
		89	कन्या उ०मा०वि० (तोपखाना) टीकमगढ़		
9. कारी	श्री राहुल मेहरा, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल टीकमगढ़ 8839001921	108	हा.से. स्कूल, कारी	9	8
		109	शा.क.प्रा.शाला कारी		
		110	पू.मा. शाला, कारी खास		
		111	पू. मा. शाला. कारी खास का उत्तरी भाग		
		112	नगर पंचायत कार्यालय कारी खास		
		113	शास. पूर्व. मा. शाला. उत्तरी भाग कारी खास		
		114	हा.से. स्कूल, कारी खास		
		115	शास.मा.शाला बजरुआ कारी खास		
116	प्रा.पा. बजरुआ कारी खास				
10. मबई	श्री डॉ० ए.के. उपाध्याय, आयुष अधिकारी, टीकमगढ़ 8853444044	117	पंचायत भवन, मबई खास	12	8
		118	नया सामुदायिक भवन मबई		
		119	हा.से. स्कूल उ.भाग मबई खास		
		120	आयुर्वेदिक अस्पताल मबई खास		
		121	हा.से. स्कूल द.भाग मबई खास		
		123	हा.से.स्कूल (पूर्वीभाग) मबई खास		
		124	हा०से०स्कूल अतिरिक्त कक्ष मबई खास		
		125	हा. से. स्कूल पश्चिमी भाग मबई खास		
		122	शा०मा.शाला गुचाई		
		138	प्राथ०शाला कंगनाखेरा		
		137	माध्यमिक शाला श्रीनगर खास		
		136	शा.प्रा.पा. दुर्गापुर		
11. मजना	श्री मयंक अग्रवाल, सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9837042874	126	पंचायत भवन बहरीनकीबन	8	8
		127	प्राथ.पाठशाला सुनीनी		
		128	प्रा.पा. रायपुर		
		129	प्राथ.पाठशाला भडरा		
		130	जू.हाईस्कूल पूर्वी भाग मजना खास		
		131	जू.हाईस्कूल पश्चिमी भाग मजना खास		
		132	प्रा.पा. जसवंतनगर		
133	शा. प्रा. शाला कटेरा खेरा				

12. रानीपुरा	श्री पृथ्वीराज सिंह घोष पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ टीकमगढ़ 9425439985	140	पंचायत भवन हजरीनगर	9	9
		139	प्रा.पा. लक्ष्मपुरा		
		97	प्रा.पा. मोहनपुरा		
		142	प्राथमिक पाठशाला जनकपुर		
		141	पूर्व माध्यमिक शाला धजरई		
		134	मा.शा. पपावनी		
		135	पंचायत भवन पपावनी		
		143	हाईस्कूल रानीपुरा		
13. लखौरा	श्री केतन शाक्य, सहायक महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण टीकमगढ़ 9131213565	149	प्रा.पा. बड़माडई	7	7
		151	प्रा.पा. रिगौरा		
		150	नवीन शाला बहादुरपुर		
		147	प्रा.पा. लखौरा		
		148	प्रा.पा. लखौरा		
		145	प्रा.पाठशाला प्रेमपुरा		
		146	माध्यमिक शाला प्रेमपुरा		
14. पहाड़ी तिलवारन	श्री रघुवर सिंह चौधरी, सहायक मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड टीकमगढ़ 7024207754	160	प्रा. पाठशाला माडूमर	10	10
		161	माध्यमिक शाला माडूमर		
		162	शास. कन्या प्राथमिक शाला माडूमर		
		163	प्राथमिक पाठशाला सागौनी		
		164	प्राथमिक पाठशाला पहाड़ी तिलवारन		
		165	शासकीय माध्यमिक शाला पहाड़ी तिलवारन		
		166	नवीन पंचायत भवन पहाड़ी तिलवारन		
		186	रेस्ट हाउस सिंचाई विभाग नगदा नाला जुड़ावन		
		187	रेस्ट हा. सिंचाई विभाग नगदा नाला कक्ष 2 जुड़ावन		
		188	प्राथमिक पाठशाला बम्होरी मड़िया		
15. नैनवारी	श्री जे.पी. अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9424365552	158	प्राथमिक पाठशाला जटऊवा खास	7	7
		155	शा. मा. शाला मातौली		
		153	पंचायत भवन सुन्दरपुर		
		154	शा.मा. शाला सुन्दरपुर		
		152	प्रा. शाला बुडकीखेरा		
		197	प्रा. पाठशाला नैनवारी		
		198	माध्यमिक शाला नैनवारी		
16. शिवपुरी	श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण उपखंड टीकमगढ़ 9993001463	21	प्रा.पा. गनेशगंज खास	9	9
		22	पंचायत भवन शिवपुरी		
		23	आगनवाड़ी भवन कुण्डेश्वर		
		24	हाईस्कूल शिवपुरी		
		25	माध्यमिक शाला कुण्डेश्वर		
		17	पंचायत भवन महाराजपुरा		
		18	शा.प्रा.शाला महाराजपुरा		
		19	प्रा.पा. हनुमानसागर		
		20	प्रा.पा. मानिकपुरा		

17. अस्तौन	श्री सुरेश सिंह कुशवाह, सहायक संचालक, उद्यानिकी टीकमगढ़ 9981021895	167	नवीन पंचायत भवन नचनवारा	9	9
		173	प्रा. पाठशाला पाण्डेर		
		174	प्रा. पाठशाला करमारई		
		180	माध्य. विद्यालय अस्तौन खास		
		181	प्राथ. बालक पाठशाला अस्तौन खास		
		182	प्रा. पाठशाला कन्या अस्तौन खास कक्ष 1		
		183	प्रा. पाठशाला कन्या अस्तौन खास कक्ष 2		
		184	पंचायत भवन अस्तौन खास		
		185	प्राथमिक पाठशाला धनूषपुरा धूराई मोहल्ला अस्तौन खास		
18. कुम्हरउ खिरिया	श्री राजेश पाठक, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ 9131184251	169	प्रा. पाठशाला मिनीरा	10	10
		168	शा. कन्या प्राथ. प्रा. शाला नीमखेरा		
		170	पंचायत भवन चरपुवा		
		172	प्राथमिक पाठशाला सूरजपुर		
		171	प्रा. पाठशाला हरपुरा मडिया		
		177	प्रा. पाठशाला तितदारी		
		175	प्रा. पाठशाला कुम्हरउ खिरिया		
		176	प्रा. पाठशाला बरखिरिया		
		178	प्रा. पाठशाला धनवाहा		
		179	पंचायत भवन धनवाहा		
19. समर्रा	श्री डी.एस. मीणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़ 9893754137	156	हा. से. स्कूल सामुदायिक शिक्षा पठा खास	11	11
		157	कन्या शाला भवन पठा खास		
		159	शा.पू.मा. शाला बालक पठा खास		
		196	प्रा. शाला बकपुरा		
		193	प्रा. पाठशाला गुदनवारा		
		194	प्रा. पाठशाला अतिरिक्त कक्ष गुदनवारा		
		189	प्रा. पाठशाला सुकवाहा		
		203	प्रा. पाठशाला केनवार		
		190	शा. पू. मा. शाला अतिरिक्त कक्ष समर्रा		
		191	पंचायत भवन समर्रा		
		192	कन्या शाला अतिरिक्त कक्ष समर्रा		
20. अजनौर	श्री दिनेश कुमार शर्मा, उपयंत्री, कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ़ 9425473811	201	जू. हाईस्कूल अजनौर खास	7	5
		202	शास. हाईस्कूल अजनौर खास		
		204	माध्यमिक पाठशाला सापीन खास		
		205	प्राथमिक शाला सापीनखास		
		200	प्रा. पाठशाला पातरखेरा		
		199	प्रा. पाठशाला श्यामपुरा		
		195	प्रा. पाठशाला राधापुर		

21. झुड़ा	श्री सी.एस. मेहरा, सहायत्री सिविल म.प.वि.मं. टीकमगढ़ 9425929204	206	प्रा. पाठशाला अमरपुर	7	5
		207	मा. शाला अमरपुर		
		251	प्रा. पाठशाला भवन अन्तौरा		
		252	ग्राम पंचायत भवन अन्तौरा		
		253	प्रा. पाठशाला भवन झुड़ा		
		254	प्रा. पाठशाला अतिरिक्त कक्ष झुड़ा		
		255	जू हाई स्कूल झुड़ा		
22. लार खास	श्री अमित भूषण, कनिष्ठ अभियंता, म. प्र.वि.मं.पूर्व क्षेत्र कं. लि. टीकमगढ़ 7000136345	211	पंचायत भवन पूर्वी भाग लारखास	8	3
		212	पंचायत भवन पूर्वी भाग लारखास		
		213	पू. मा. शाला लारखास		
		214	शा. हायरसेकण्डरी स्कूल लारखास		
		215	प्रा. पाठशाला लारखास		
		216	प्रा. पाठशाला बड़माडई खास		
		217	शा. मा. शाला बड़माडई खास		
		218	प्रा. पाठशाला लक्ष्मनपुरा		
23. दरगुवां	श्री रजनीश तिवारी, उपयंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9425815315	236	प्रा. पाठशाला हरदोल मुहल्ला दरगुवां	8	7
		237	मा. शाला दरगुवां		
		238	शा. मा. शाला अति. कक्ष दरगुवां		
		210	प्रा. पाठशाला रसीई		
		209	प्रा. पाठशाला नगरा		
		208	प्रा. पाठशाला दरी		
		242	प्रा. पाठशाला परा खास		
		239	प्रा. पाठशाला झुड़ाटीरा		
24. बड़ागांव	श्री उमेश साहू, कार्यपालक यंत्री, ग्रामीण यात्रिकी सेवा टीकमगढ़ 9424345189	243	हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तरी भाग बड़ागांव धसान	10	4
		244	शास. माध्यमिक शाला बड़ागांव धसान		
		245	शा. प्रा. पाठशाला बड़ागांव धसान		
		246	शा. मा. शाला बड़ागांव धसान		
		247	हायर सेकेण्डरी स्कूल दक्षिणी भाग बड़ागांव धसान		
		248	हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तरी भाग बड़ागांव धसान		
		249	हायर सेकेण्डरी स्कूल पूर्वी भाग बड़ागांव धसान		
		250	नगरपालिका कार्यालय बड़ागांव धसान		
		240	प्रा. पाठशाला मौखरा		
		241	ग्राम पंचायत भवन मौखरा		

25. ककरवाहा	श्री तपन कुमार सरकेल, सहायक अभियंता, म.प्र.वि.मं. पूर्व क्षेत्र क.लि. टीकमगढ़ 9165223412	260	प्रा. शाला ककरवाहा खास	10	8
		261	मा. शाला ककरवाहा खास का पश्चिमी भाग		
		262	मा. शाला ककरवाहा खास		
		263	प्रा. शाला शशनखेरा		
		264	प्रा. पाठशाला भेला		
		265	प्रा. पाठशाला अटरिया		
		256	प्रा. पाठशाला हैदरपुर		
		257	प्रा. पाठशाला भैसवारी		
		258	प्रा. पाठशाला सुकलाई		
		259	प्रा. पाठशाला ऊमरी		
26. बुड़ेरा	श्री पी.एन. असाठी, सहायक अभियंता, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.कं. टीकमगढ़ 9425613998	219	प्रा. पाठशाला नन्ही देहरी	10	5
		220	मा. शाला नन्ही देहरी		
		221	शा० प्रा० शाला नन्ही देहरी		
		229	हाई स्कूल उत्तरी भाग बुड़ेरा		
		231	हाई स्कूल दक्षिणी भाग बुड़ेरा		
		232	हाई स्कूल का पूर्वी भाग बुड़ेरा		
		230	शा० पूर्व मा० शाला बुड़ेरा		
		234	पंचायत भवन रामनगर		
		235	प्रा. पाठशाला पुरनियां		
		233	प्रा. पाठशाला सूडा धर्मपुरा		
27. डिकौली	श्री देवी प्रसाद साहू, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ 9425474014	226	प्रा. पाठशाला डिकौली	7	7
		227	पंचायत भवन डिकौली		
		228	प्रा. पाठशाला सुजारा		
		222	प्रा. पाठशाला नयागांव		
		223	प्रा. पाठशाला हरिजनबस्ती नयागांव		
		224	पंचायत भवन नयागांव		
		225	प्रा० पाठशाला भैरा शंकरगढ़		
रिजर्व दल-		1. श्री रामनाथ अहिरवार, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ 9893583540			
		2. श्री बी.कै. नायक, प्राध्यापक, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ 9424346125			
		3. श्री महेन्द्र नायक, प्रभारी प्राचार्य, शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ 9425880589			

क.-निर्वा.-वि.स.-2018-368

आदेश

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सुचारु संचालन हेतु 06-टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र- 47-खरगापुर में निम्नानुसार कॉलम नंबर 2 में अंकित अधिकारियों को कॉलम नं. 1 में अंकित सेक्टर का सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सेक्टर अधिकारी सेक्टर में भ्रमण कर संलग्न चैक लिस्ट अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सेक्टर क्र एवं सेक्टर का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद तथा मोबाईल नंबर	मतदान केन्द्र का क्र.	मतदान केन्द्र का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	लोकेशन संख्या				
1 पाली	श्री जितेन्द्र यादव, सहायक यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 7898397139	1	शा0प्रा0शाला भटगौरा	10					
		2	शा0प्रा0शाला फूलपुर						
		3	शा0प्रा0शाला मगरई						
		4	नवीन शाला भवन मगरई						
		5	शा0प्रा0शाला अलोपा						
		6	शा0प्रा0शाला रतनगुवा						
		7	शा0मा0पाठ शाला पाली						
		8	शा0प्रा0शाला पाली						
		9	शा0 पूर्व माध्यमिक शाला पाली						
		12	शा0प्रा0शाला वसंतगुवा						
		2 टोरी	श्री जय कृष्ण द्विवेदी उपयंत्री, बान सुजारा नहर जल संसाधन संभाग बलदेवगढ़ 9826190917			10	शा0प्रा0शाला रजपुरा	9	
						11	शा0प्रा0शाला रजपुरा नं निवावरी		
13	शा0प्रा0शाला चरी								
14	शा0प्रा0शाला चौरटानगा								
15	शा0प्रा0शाला लिधौरा नं टोरी								
16	शा0प्रा0शाला टोरी								
22	शा0प्रा0शाला टपरियन चौहान								
23	शा0प्रा0शाला लहर बुजुर्ग								
24	शा0प्रा0शाला खुमानगज								
3 बुदौर	श्री बी.के. सिंह, सहा0 प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कुण्डेश्वर टीकमगढ़ 9424601700			17	शा0प्रा0शाला घूरा खास	10			
		18	पंचायत भवन घूरा खास						
		19	शा0पूर्व मा0शाला घूरा खास						
		20	शा0प्रा0शाला महेन्द्र महेवा						
		21	शा0प्रा0शाला महेन्द्र महेवा अतिरिक्त कक्षा						
		25	शा0पूर्व मा0शाला बुदौर						
		26	शा0प्रा0शाला बुदौर						
		27	शा0प्रा0शाला घुतकडी						
		28	हा0स0स्कूल उत्तरी भाग पलेरा						
		29	हा0स0स्कूल दक्षिणी भाग पलेरा						

पलेरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पलेरा	30	शा0 कन्या हा0से0 स्कूल कक्ष-1 पलेरा	12					
		31	शा0 कन्या शाला कक्ष क्र0 2 पलेरा						
		32	शा0हा0से0स्कूल पूर्वी पलेरा						
		33	शा0हा0से0स्कूल पश्चिमी पलेरा						
		34	शा0महाविद्यालय पलेरा						
		35	शा0महाविद्यालय पलेरा						
		36	प्रा0पाठशाला रविदासपुरा उत्तरी भाग पलेरा						
		37	प्रा0पाठशाला रविदासपुरा पश्चिमी भाग पलेरा						
		38	शा0प्रा0शाला राज मुहल्ला पलेरा						
		39	शा0प्रा0शाला राज मुहल्ला पलेरा						
		50	शा0प्रा0शाला सैपुरा						
		51	शा0मा0शाला अतिरिक्त कक्ष सैपुरा						
5 लारीन	श्री राजन भारती उपयंत्री जनपद पंचायत पलेरा 8821063415	40	शा0प्रा0शाला मडाहार	12					
		41	शा0पूर्व मा0शाला लारीन						
		42	शा0बालक प्रा0शाला लारीन						
		43	शा0प्रा0शाला लारीन पूर्वी भाग						
		44	शा0प्रा0शाला						
		45	पंचायत भवन लारीन						
		46	शा0मा0शाला नयागाँव						
		47	पंचायत भवन बैडरी						
		48	शा0प्रा0शाला पूर्वी भाग बैडरी						
		49	शा0प्रा0शाला पश्चिमी भाग बैडरी						
		62	शा0पूर्व मा0शाला बखतपुरा						
		53	शा0 कन्या प्रा0शाला बखतपुरा						
6 आलमपुरा	श्री विपिन शर्मा, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग जतारा 9893897398	54	शा0प्रा0शाला मुराहा बाबा	10					
		55	पंचायत भवन हनोता						
		56	शा0प्रा0शाला हनोता						
		57	शा0पूर्व मा0शाला आलमपुरा						
		58	शा0 कन्याप्रा0शालापूर्वी भाग आलमपुरा खास						
		59	कन्या पाठ शाला पश्चिमी भाग आलमपुरा						
		60	शा0प्रा0शाला बेला						
		61	शा0प्रा0शाला पडआ						
		62	शा0प्रा0शाला बन्ने बुजुर्ग कक्ष-1						
		63	मा0शाला बन्नेबुजुर्ग कक्ष-1						
		7 पुरैनिया	श्री लखन प्रताप सिंह, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग टीकमगढ़ 9981868182			64	शा0प्रा0शाला दांतगौरा	10	
						65	शा0प्रा0शाला भदरा		
66	शा0प्रा0शाला किशनपुरा								
67	पंचायत भवन पुरैनिया								
68	शा0प्रा0शाला भवन पुरैनिया								
69	शा0प्रा0शाला उत्तरी भाग रामनगरबुजुर्ग								
70	शा0प्रा0शाला पश्चिमी भाग रामनगरबुजुर्ग								
71	शा0प्रा0शाला छिंदारा								
72	शा0प्रा0शाला ददगाय खास								
73	शा0प्रा0शाला रमसगरा								

8 पिपरा	श्री गौरव जैन, उपयंत्री, बानसुजारा नहर जल संसाधन संभाग वल्लेखगढ़ 8962843697	74	शा0प्रा0शाला जू0हा0स्कूल छिदारी	12
		75	शा0प्रा0शाला विलारी खेरा (छिदारी)	
		76	शा0प्रा0शाला पचेर खास	
		77	शा0प्रा0शाला-पेचेर-खास-आदिवासी-मुहल्ला	
		78	शा0प्रा0शाला पिपरा (विलारी)	
		79	शा0प्रा0शाला पिपरा विलारी	
		80	मानपुरा जू0हा0स्कूल पूर्वीभाग	
		81	जू0हा0स्कूल पश्चिमी भाग मानपुरा	
		82	शा0प्रा0पाठ शाला पश्चिमी भाग धनेरा	
		83	पंचायत भवन धनेरा	
		252	शा0प्रा0शाला कोटरा	
		253	शा0प्रा0शाला भवन अतिरिक्त कक्ष कोटरा	
9 देरी	श्री भगवत प्रसाद विदुआ, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9993448214	84	शा0प्रा0शाला कन्या देरी	10
		85	शा0कन्या मा0देरी	
		86	शा0हा0से0स्कूल पूर्वी भाग देरी	
		87	शा0 हा0से0स्कूल दक्षिणी भाग देरी	
		88	शा0हा0से0स्कूल पश्चिमी भाग देरी	
		89	शा0प्रा0शाला पश्चिमी देरी	
		90	शा0प्रा0शाला कडरई	
		91	शा0प्रा0शाला तिगौड़ा	
		104	शा0प्रा0शाला खैरा	
105	शा0मा0शाला गैती			
10 फुटेर चक्र-1	श्री राघवेंद्र सिंह सूर्यन, सहायक यंत्री, बान सुजारा बांध टीकमगढ़ 9993668918	92	शा0प्रा0शाला धरमपुरा	12
		93	शा0प्रा0शाला धरमपुरा	
		94	शा0प्रा0शाला नया भवन टीला	
		95	शा0प्रा0शाला खुडो न देरी	
		96	प्रा0शाला हदयनगर	
		97	शा0प्रा0शाला रमपुरा	
		98	शा0प्रा0शाला बछौड़ा	
		99	आगनवाडी केन्द्र खुडो नदी कुडीला (बछौड़ा)	
		100	शा0जू0हा0स्कूल फुटेर चक्र नं 1	
		101	शा0मा0शाला फुटेर चक्र 1	
102	शा0प्रा0शाला फुटेर चक्र 1 पूर्वी			
103	शा0प्रा0शाला फुटेर चक्र1 पश्चिमी			

मातौल खास	श्री कन्हैया लाल अहिरवार सहायक यंत्री ग्रा०या०सेवा टीकमगढ़ 9340869904	106	शा०प्रा०शाला पथरगुवा	11
		107	नवीन मा०शाला भवन अतिरिक्त कक्ष क.1	
		108	नवीन मा०शा भवन मातौल अति. कक्ष क 1	
			नवीन मा०शाला भवन मातौल अति.कक्ष क. 3	
		109	पूर्वी भाग	
		110	नवीन मा०शाला भ. मातौल अति. कक्ष क4 पूर्वी भाग	
		111	शा०प्रा०शाला फुटेर चक नं 2	
		112	शा०कन्या प्रा०पाठ शाला फुटेर चक 2	
		113	शा०मा०शाला विशवनगर (फुटेर चक नं2)	
		119	शा०प्रा०शाला चौबारा	
		120	शा०मा०शाला चौबारा	
121	शा०प्रा०शाला देवपुर			
12 चौबारा	श्री मलखान अहिरवार, उपयंत्री, बानसुजारा नहर जल संसाधन संभाग वल्देवगढ़ 9893868139	114	शा०प्रा०शाला गुना	11
		115	शा०मा०शाला गुना	
		116	शा०मा०शाला नवीन भवन गुना	
		117	शा०प्रा०शाला नवीन भवन गौरा	
		118	शा०प्रा०शाला ठिमरीला गौरा	
		144	शा०प्रा०शाला बनुपुरा सापौन	
		145	शा०प्रा०शाला सिजौरा	
		146	शा०प्रा०शाला सिजौरा	
		147	शा०प्रा०शाला नया खेरा सिजौरा	
		148	शा०मा०शाला भवन पिपरा	
149	शा०प्रा०शाला चंदेरी खास दक्षिणी भाग (मडोरी)			
13 कुडीला	श्री अनिल कुमार अहिरवार, उपयंत्री, बानसुजारा नहर जल संसाधन संभाग वल्देवगढ़ 9926056318	122	शा० जू०हाई स्कूल पूर्वी भाग चन्द्रपुरा	9
		123	शा० जू०हाई स्कूल पश्चिमी भाग चन्द्रपुरा	
		124	शा०प्रा०शाला कन्या चन्द्रपुरा	
		125	शा०प्रा०शाला नौरपारा	
		243	शा०जू०हाईस्कूल पूर्वी भाग कुडीला	
		244	शा०जू०हाई स्कूल दक्षिणी भाग कुडीला	
		245	शा०प्रा०शाला नवीन भवन कुडीला	
		246	शा०प्रा०शाला कुडीला	
247	पंचायत भवन कुडीला			

4 भेलसी	श्री रामनरेश यादव, उपर्यत्री, बानसुजारा नहर जल संसाधन संभाग वल्देवगढ़ 72472575589	126	शा0प्रा0शाला फरका पठराई	13
		127	शा0प्रा0शाला फरका पठराई	
		128	शा0मा0शाला खरौं	
		129	शा0मा0शाला खरौं	
		131	शा0प्रा0शाला बड़ेरा	
		215	जू0हा0स्कूल उत्तरी भाग भेलसी	
		216	कन्या मा0शाला भेलसी	
		217	जू0हाई स्कूल दक्षिणी भाग भेलसी	
		218	हाई स्कूल भाग भेलसी	
		219	शा0मा0शाला भेलसी	
		220	शा0कन्या मा0शाला भेलसी पूर्वी भाग	
		221	शा0प्रा0शाला भेलसी	
222	शा0प्रा0शाला भेलसी			
15 खरगापुर	श्री महेश दोहरे, परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना वल्देवगढ़ 7999132531	130	शा0प्रा0शाला मनपसार	13
		132	शा0कन्या उ0मा0वि खरगापुर पश्चिमी भाग	
		133	शा0कन्या उ0मा0वि खरगापुर पूर्वी भाग	
		134	शा0बालक उ0मा0वि0 खरगापुर दक्षिणी भाग	
		135	शा0 बालक उ0मा0वि0खरगापुर उत्तरी भाग	
		136	शा0बालक उ0मा0वि0खरगापुर पूर्वी भाग	
		137	शा0बालक उ0मा0वि0खरगापुर दक्षिणी भाग	
		138	शा0प्रा0शाला (बालक) पश्चि. भाग खरगापुर	
		139	शा0प्रा0शाला बालक पूर्वी भाग खरगापुर	
		140	शा0उ0मा0वि0पश्चिमी भाग खरगापुर	
		141	शा0पूर्व मा0वि0पूर्वी भाग खरगापुर	
		142	नगर पालिका कार्यालय खरगापुर	
		143	नीवन प्रा0शाला पठापुर खरगापुर	
16 मझगुवा	श्री एस.पी. शाक्य, अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग टीकमगढ़ 9424791351	150	जू0हाई स्कूल पूर्वी भाग सरकनपुर	12
		151	जू0हाई स्कूल पश्चिमी भाग सरकनपुर	
		152	शा0मा0शाला सरकनपुरा(सरकनपुर)	
		153	शा0मा0शाला सरकनपुरा अतिरिक्त कक्षा (सरकनपुर)	
		154	शा0प्रा0शाला श्यामपुरा	
		155	शा0प्रा0शाला मझगुवा	
		156	शा0प्रा0शाला भितरवार	
		157	शा0प्रा0शाला हीरापुर न सरकनपुर	
		158	शा0प्रा0शाला बनियानी	
		159	शा0मा0शाला बनियानी	
		160	शा0प्रा0शाला भिलोनी	
		166	शा0प्रा0शाला बलवंतपुरा खास	

करमासन घाट	श्री वी.पी. सिंह, अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टीकमगढ़ 9479328753	161	शा0मा0 शाला बनपुरा खुर्द	10	
		162	शा0प्रा0शाला राजनगर		
		171	शा0पूर्व मा0शाला बेसा दक्षिणी भाग		
		172	शा0पूर्व मा0शाला बेसा उत्तरी भाग		
		173	शा0प्रा0शाला करमासनघाट		
		174	शा0प्रा0शाला करमासनहटा		
		175	शा0प्रा0शाला बाबा खेरा (करमासनहटा)		
		179	शा0मा0शाला लडवारी खास		
		180	शा0प्रा0शाला हरिजन वस्ती लडवारी खास		
		181	शा0प्रा0शाला लडवारी खास		
18 नारायणपुर	श्री पी.के. सक्सेना कार्यपालन यंत्री, जल निगम टीकमगढ़ 9753087252	182	शा0प्रा0शाला कठियाखेरा	11	
		183	शा0पूर्व मा0वि0 अहार		
		184	शा0प्रा0शाला ढढकना (अहार)		
		185	शा0पूर्व मा0शाला नारायणपुर दक्षिणी भाग		
		186	शा0पूर्व मा0वि0 नारायणपुर उत्तरी भाग		
		187	शा0प्रा0शाला डूडखेरा		
		188	शा0प्रा0शाला लुहरा		
		189	शा0प्रा0शाला खुशीपुरा (लुहरा)		
		190	शा0प्रा0शाला ठिनरीला गनेशपुरा		
		191	शा0मा0शाला भवन गनेशपुरा		
		192	शास0माध्यमिक शाला डुम्बार		
		19 जिनागढ़ खास	श्री सूर्यकांत सिरवेया, श्रम पदाधिकारी टीकमगढ़ 7879493284		
164	शा0पूर्व मा0शाला पश्चिमी भाग सुजानपुरा				
165	शा0प्रा0शाला ढगरा (सुजानपुरा)				
167	शा0प्रा0शाला जटोरा				
168	शा0प्रा0शाला जिनागढ़ खास				
169	शा0प्रा0शाला चारकी (जिनागढ़ खास)				
170	शा0प्रा0शाला सौरयाना देवीनगर				
176	शा0प्रा0शाला दुर्गानगर				
177	शा0प्रा0शाला शिनगुवा				
178	शा0प्रा0शाला चंदूली				
20 तालमंड खास	श्री अनुग्रह सिंह, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें टीकमगढ़ 9675118677	193	शा0प्रा0शाला रमपुरा नं सेवार	11	
		194	आंगनवाडी भवन रजपुरा		
		195	शा0मा0शाला रमपुरा नं सेवार		
		196	शा0प्रा0शाला वृषभानपुरा		
		197	शा0प्रा0शाला तालमंड		
		198	शा0मा0शाला तालमंड		
		199	शा0प्रा0शाला भतारी		
		200	शा0प्रा0शाला गुखरई खास		
		201	शा0प्रा0शाला नवीन दक्षिणी भाग गुखरई खास		

21 बल्देवगढ़	कार्यपालन अधिकारी जनप्रद पंचायत बल्देवगढ़ जनप्रद पंचायत बल्देवगढ़	202	शा0मा0शाला बनेरा	11
		203	शा0मा0शाला बनेरा अतिरिक्त कक्ष	
		204	शा0प्रा0शाला कैलपुरा	
		205	पंचायत भवन कैलपुरा	
		206	शा0मा0शाला कैलपुरा	
		207	नगर पालिका बल्देवगढ़	
		208	नगर परिषद कमरा नं 2	
		209	हा0से0स्कूल दक्षिणी भाग कक्ष क्रमांक 1 बल्देवगढ़	
		210	हा0से0स्कूल दक्षिणी भाग कक्ष क्रमांक 3 बल्देवगढ़	
		211	शा0कन्या शाला बल्देवगढ़	
		212	शा0प्रा0शाला बम्होरी तिगेला	
		213	शा0कन्या मा0शाला बल्देवगढ़	
		214	बी0आर0सी0भवन बल्देवगढ़	
		22 देवरदा खास	श्री के.आर. अहिरवार, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9165788035	
224	शा0प्रा0शाला बड़ाघाट			
225	शा0प्रा0शाला बड़ाघाट			
226	शा0 नवीनप्रा0शाला डुडियनखेरा			
227	शा0जू0हाई स्कूल देवरदा खास उत्तरी भाग			
228	शा0प्रा0शाला देवरदा खास			
229	शा0प्रा0शाला जू0हाई स्कूल देवरदा दक्षिणी भाग			
230	प्रा0पाठशाला बुदौरा			
231	शा0प्रा0शाला सूरजपुर खास			
232	शा0प्रा0शाला सूरजपुर खास			
23 डारगुवा	श्री रामसेवक शेजवार उपयंत्री, बानसुजारा बांध टीकमगढ़ 7223957459	233	शा0प्रा0शाला इमलाना	12
		234	शा0पूर्वमा0शा0अतिरिक्त कक्ष डारगुवा	
		235	शा0पूर्वमा0शा0अतिरिक्त कक्ष डारगुवा	
		236	शा0प्रा0शाला कडयाला	
		237	पंचायत भवन मौने का खेरा	
		238	शा0प्रा0शा कछिया खेरा (मौनेकाखेरा)	
		239	शा0जू0हाई स्कूल मलगुवा	
		240	शा0प्रा0शाला मलगुवा जू0हाई स्कूल के पास	
		241	शा0प्रा0शाला तिमरीरा (मलगुवा)	
		242	शा0प्रा0शाला गरौली	
		265	शा0प्रा0शाला सरकर खालसा	
		266	शा0प्रा0शाला सरकर जागीर	

4 चंदेरी खास	श्री संतोष कुमार राणा उपयंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ 9993262675	248	शा0पूर्व मा 0शाला दोह चक 1	10			
		249	शा0जू0हाई स्कूल दोह				
		250	पंचायत नया दोह				
		251	शा0मा0शाला चिनगुवा (दोह चक नं2)				
		254	शा0प्रा0शाला चंदेरी खास पूर्वी भाग				
		255	शा0प्रा0शाला चंदेरी खास पश्चिमी भाग				
		256	शा0प्रा0शा0 चंदेरी खास पश्चिमी भाग				
		257	शा0जू0हाई स्कूल उत्तरी भाग (हीरापुर खास)				
		258	शा0प्रा0शाला हीरापुर खास				
		259	शा0प्रा0शाला बल्देव सिंह (हीरापुर)				
25 गुजरायतन खास	श्री आर.बी.एस. जयंत, उपयंत्री, बानसुजारा बांध टीकमगढ़ 9425489938	260	शा0प्रा0शाला वार	11			
		261	शा0प्रा0शाला वरमे				
		262	शा0प्रा0शाला कडवाहा				
		263	शा0प्रा0शाला बनपुरा बुजुर्ग				
		264	शा0प्रा0शाला मउ				
		267	शा0प्रा0शाला गुजरायन खास				
		268	शा0प्रा0शाला इमलिया				
		269	शा0प्रा0शाला खरीला				
		270	शा0प्रा0शाला सैपुरा				
		271	शा0जू0हाई स्कूल नवीन भवन कन्नपुर				
		272	शा0प्रा0शाला पातीखेरा (कन्नपुर)				
		26 हटा	श्री आर.डी. अहिरवार, उपयंत्री, बान सुजारा बांध टीकमगढ़ 7898697636		273	शा0प्रा0शाला पटौरी जागीर	12
					274	शा0प्रा0शाला रमपुरा नं हटा	
275	शा0जू0हाई स्कूल हटा						
276	शा0प्रा0शाला हटा						
277	शा0प्रा0शाला ढोगाखिरक (हटा)						
278	शा0प्रा0शाला कुलगुवा						
279	शा0जू0हाई स्कूल कक्ष ऐरोरा						
280	प्रा0शाला ऐरोरा						
281	शा0प्रा0शाला अतिरिक्त कक्ष खौंडेरा						
282	शा0प्रा0शाला लमेरा						
283	शा0प्रा0शाला हरपुरा						
284	शा0प्रा0शाला मिडावली						

रिजर्व दल-

1. श्री रामलखन पाराशर, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, बल्देवगढ़ 9424923552
2. श्री वी.के. दीक्षित, सहा.प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय कुण्डेश्वर टीकमगढ़ 9993216951
3. श्री रामकृपाल रघुवंशी, उपयंत्री लो.नि.वि. वि/यां. टीकमगढ़ 9424340156

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-उमरिया, मध्यप्रदेश

क. 16-ई-25-सामा.निर्वा.-2019-271

उमरिया, दिनांक 11 मार्च 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने का प्रस्ताव

क	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिले के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
01	श्री प्रवीण सोनी	एस.डी.ओ.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
02	श्री एस.एस. भरावी,	सहायक आपूर्ति अधिकारी,	खाद्य विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
03	श्री आर.के. डॉबर	उपयंत्री	पीआईयू उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
04	श्री एम.एस.वर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
05	श्री सुनेन्द्र सदाफल	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास सेवा करकेली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
06	श्री एस.के. श्रीवास्तव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
07	श्री रविन्द्र इडिया	खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
08	श्री के.के. गुप्ता,	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा करकेली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
09	श्री आर.एस. चक्रवर्ती	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्री नंदकिशोर मिश्रा वन	रेंजर	परिक्षेत्र उदिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्री प्यारेलाल कंवर	उपयंत्री	पीआईयू उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्री डी.पी.पटेल	जिला मलेरिया अधिकारी	जिला मलेरिया कार्यालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्री आर.एन. श्रीवास्तव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री आर.डी. पटेल	सहा.संचालक	उद्येयनिकी उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
15	श्री ए.के. कोरी	संभागीय परियोजना यंत्री	पीआईयू उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री एस.के. तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	पीडब्ल्यूडी उमरिया (विद्या.)	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्री राजेश प्रजापति	उपयंत्री	पीआईयू उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
18	श्री धीरज कुमार कोहल	उपयंत्री	पीआईयू उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

19	श्री विवेक मिश्रा	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
20	श्री पी.के. त्रिपाठी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
21	श्री के.सी.चतुर्वेदी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
22	श्री आर.के.दिवेदी	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
23	श्री पप्पू सिंह बारकेल	वन क्षेत्रपाल	वन परिक्षेत्र गौरीजाबाद	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
24	श्री खेलावन डेहरिया	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
25	डॉ. अविनाश सिंह	सहा.पशु शल्यज	शासकीय पशु औषधालय कचनपुर	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
26	श्री आर.एस. गौतम	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखण्ड करकेली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
27	श्री समीर पटेल	सहायक यंत्री	कृषि विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
28	श्री सी.बी. सोधिगा	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
29	श्री बी.एस.परिहार	जिला आपूर्ति अधिकारी उमरिया	खाद्य विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
30	श्री अजय कुमार वर्मा	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
31	श्री आर.के. मण्डवी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद प्रचार्यत करकेली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
32	श्री ए०बी० सिंगम	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्यिकी विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
33	डॉ. नृजेश सिंह	सहायक पशु शल्यज	शासकीय पशु औषधालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
34	श्री सी.एम.सिंह	सब इंजीनियर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संगम उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
35	डॉ. एम.एल.मेहरा	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवाएं उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
36	शेख मकसूज खान	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर परिषद गौरीजाबाद	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
37	श्रीमती शांति बेले,	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
38	श्रीमती हेमेश्वरी पटेल,	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका परिषद उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

39	श्री एस.के. नरेती	उपसत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा बागग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
40	श्री कमलाकर सिंह	एस.डी.ओ.	जल ससाधन विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
41	श्री गजेन्द्र लामरिया	सहायक प्रबंधक	प्र.म.प्रा.स.गो. उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
42	डॉ. जयप्रकाश	सहायक पशु शल्यज्ञ	शासकीय पशु औषधालय मानपुर	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
43	श्री एस.के. साधिया	सहायक संचालक	मृत्यु विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
44	श्री रणमत सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
45	डॉ. एम.के. द्विवेदी	सहायक पशु शल्यज्ञ	शासकीय पशु औषधालय ताला	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
46	डॉ. प्रेम सिंह	सहा.संचालक	कृषि विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
47	श्री यंकेज मुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी	पीआईएन उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
48	श्री ज्ञानचंद त्रिपाठी	उप.संभागीय प्रबंधक	वन विकास निगम उमरिया	रा.वन सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
49	डॉ. लोकेश बेलवंशी	सहायक पशु शल्यज्ञ	शासकीय पशु औषधालय अमरपुर	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
50	श्री रामसिंह उईके	खनिज अधिकारी	खनिज विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
51	श्री राजेश खरे	सहायक आपूर्ति अधिकारी	खाद्य विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
52	श्री आर.एन. वर्मा	मण्डल प्रबंधक	वन विकास निगम उमरिया	रा.वन सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
53	श्री वीरेन्द्र कुमार गौतम	रेंजर	वन परिक्षेत्र पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
54	डॉ. डी.पी. द्विवेदी	सहायक पशु शल्यज्ञ	शासकीय पशु औषधालय पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
55	श्रीमती आरती पटेल	सहायक आयुक्त	सहकारिता विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
56	डॉ. विनोद सिंह	आयुष अधिकारी	जिला आयुष कार्यालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
57	डॉ. आर.बी. द्विवेदी	जिला आयुष अधिकारी	जिला आयुष कार्यालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
58	श्री बी.एम. सिंह	मण्डली सचिव	कृषि उपज मण्डली उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
59	सुश्री सोनाली सिन्हा	सहायक सत्री	लोक स्वा.प्रा. उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

60	श्री नामेन्द्र तिवारी	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना मानपुर	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
61	श्री धीरेन्द्र सिंह	रैंजर	वन परिक्षेत्र उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
62	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद प्रचालन मानपुर	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
63	श्री राहुल मिश्रा	एस.डी.ओ.	वन पाली	रा.वन सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
64	श्री के.के. जैन	अनुविधानीय अधिकारी	पीआईयू उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
65	डॉ. प्रदीप सिंह	सहायक पशु शल्यज	शासकीय पशु औषधालय जौरी	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
66	श्री राणा प्रताप सिंह	बीईओ	शिक्षा खण्ड पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
67	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	सहायक मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
68	डॉ. रामेश्वर पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद प्रचालन पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
69	डॉ. जे.एस. पेंडो	सहायक पशु शल्यज	शासकीय पशु औषधालय घुनघुटी	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
70	श्री एम.एल. भावेकर	एस.डी.ओ.	जल संचालन विभाग उप सभाग पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
71	श्री बलवंत सिंह ठाकुर	कार्यपालन मंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
72	श्री पी.के. कौरव	सहा. संचालक	किरात एवं कृषि कल्याण उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
73	श्री राशिद खान	सहा. संचालक	किरात एवं कृषि कल्याण उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
74	श्री आनंद भाधव मिश्रा	उपयंत्री	लोक सेवा विभाग उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
75	श्री डी.के. मित्तल	सहा. प्रबंधक	पीएमजीएसवाय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
76	श्रीमती आमा त्रिपाठी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका परिषद पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
77	मोनिका सिन्हा एकीकृत	परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
78	श्री मनमोहन सिंह कुशराम	उप संचालक	सामाजिक न्याय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
79	श्री संदीप दीक्षित	जिला प्रबंधक	दीन दयाल अन्वैद्य योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

80	श्री जितेन्द्र पटेल	जिला प्रबंधक	दीन दयाल अन्वयोदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
81	श्री विश्राम सिंह धूर्त	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	जिला योजना समरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
82	श्री संदीप सिंह बघेल	जिला प्रबंधक	दीन दयाल अन्वयोदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
83	श्रीमती मनीषा कान्हा	जिला समन्वय	स्वच्छ भारत मिशन जिला पंचायत उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
84	श्री हरि प्रकाश पाण्डेय	अनुरेखक	लौ.नि.वि.(वि.या.) उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
85	श्री नीरज परमार,	जिला प्रबंधक	NRLM जिला पंचायत उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
86	श्री रामबहोर तिवारी	मुख्य लिपिक	जिला आयुष कार्यालय उमरिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
87	श्री संतोष कुमार दुबे,	राजस्व निरीक्षक	तहसील चोदिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
88	श्री लालमणि प्रजापति,	राजस्व निरीक्षक	तहसील चोदिया	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
89	श्री ज्ञानचन्द्र पनिका,	राजस्व निरीक्षक	तहसील नौरोजामाद	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
90	श्री नंदलाल साकेत,	राजस्व निरीक्षक	तहसील मानपुर	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
91	श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	तहसील मानपुर	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
92	श्री विशाल रत्नम,	राजस्व निरीक्षक	तहसील पाली	रा.सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

अमरपाल सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-कटनी, मध्यप्रदेश
कटनी, दिनांक 8 फरवरी 2019

क. 203-व्यय-लो.स.निर्वा.-2019

अन्य विभागों के अधिकारियों को कार्यपालक दंडाधिकारी बनाए जाने हेतु संशोधित सूची

Sl. No.	mp_id	Name	Designation	Office Name	mobile_no	mp govt
1	26026	मुरलीधर सिंह	विकासखंड अधिकारी	जनपद पंचायत बडवारा	7089659087	mp govt
2	300024	गुलाब सिंह राजपूत	सहायक वंत्री	नर्मदाघाट विकास विभाग	9179256788	mp govt
3	24987	उमेश कुमार निवारो	सहोमत्स्य अधिकारी	सहायक संचालक नरसराजपुरा	8839534170	mp govt
4	25304	गोविंद कुमार सोनी	सहोमत्स्य अधिकारी	सहायक संचालक नरसराजपुरा	9425466625	mp govt
5	32303	राजेश कुमार त्रिपाठी	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	8085946200	mp govt
6	32431	सुखदेव सिंह धुवे	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9893736033	mp govt
7	495588	अमिताभ मानडस	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9425466567	mp govt
8	34836	सुधीर कुमार शर्मा	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9425803447	mp govt
9	39127	विश्वनाथ शर्मा त्रिपाठी	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9630470920	mp govt
10	83155	अशोक कुमार	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9424640605	mp govt
11	53828	अशोक कुमार मिश्रा	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	7089606424	mp govt
12	54297	अनुराज शर्मा	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	7000641967	mp govt
13	54754	शशांक जैन	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9981033722	mp govt
14	55271	अरवि प्रताप सिंह धुवे	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9409741438	mp govt
15	84758	लोकेश प्रसाद नाराज	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9425844689	mp govt
16	169988	नरेश कुमार अग्रवाल	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9424618058	mp govt
17	422060	छेदालाल साक्ल	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9425810676	mp govt
18	699870	हरमोहिंद सिंह	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9589688053	mp govt
19	699906	रामसुमित्रा त्रिपाठी	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	8818922471	mp govt
20	699966	हरिशंकर शुक्ला	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9893711855	mp govt
21	700340	प्रमोदलाल सोनी	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9981813450	mp govt
22	700352	रविशंकर सिंह बंस	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9926739303	mp govt
23	700438	सुनील कुमार प्रताप	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9685273112	mp govt
24	572078	मोहन कुमार	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9424625023	mp govt
25	571504	अशोक प्रसाद	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	7489653818	mp govt
26	571911	सरोज कुमार नायक	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9039394365	mp govt
27	485492	आर के अग्रवाल	सहोमत्स्य अधिकारी	शांमहाविद्यालय बरही	9407417460	mp govt
28	28894	शिवरंजन चंद्रवाल	सहायक संचालक	महिला बालविभाग कटनी	7987912252	mp govt
29	158858	नन्दकिशोर नेहरा	सहायक संचालक	महिला बालविभाग कटनी	7987912252	mp govt
30		विजय शर्मा	सहायक संचालक	महिला बालविभाग कटनी	7987912252	mp govt
31	768680	ब्रजेश विश्वकर्मा	सहायक संचालक	महिला बालविभाग कटनी	9424625023	mp govt
32	571737	पी0 के0 शर्मा	सहायक संचालक	महिला बालविभाग कटनी	8770372393	mp govt
33	571691	वित्तय कुमार	सहायक संचालक	महिला बालविभाग कटनी	8827878589	mp govt
					9981127636	mp govt

571648	जयभान महोदय	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9575016749	central govt
572032	विजय मंचालवार	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9584861919	central govt
571604	अजय कुमार बेन	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9926616064	central govt
571282	जितेन्द्र कुमार	कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9416845400	central govt
571102	अजय कुमार	कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	7869118166	central govt
571150	अजय दुबे	कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9735710563	central govt
571204	विवेक आनंद	सहायक कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	7083361239	central govt
571359	जसवंत सिंह केनीवाल	सहायक कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9335521276	central govt
571321	नवीत शर्मा	सहायक कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	7030247256	central govt
179519	विजयसंग कुलकर्णी	सहायक कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	8247723375	central govt
172751	सुन्दरलाल सेन	उपयंत्री	पी०डब्ल्यू०डी० कटनी	9826645161	mp govt
76293	सतीश पटेल	परियोजना अधिकारी	महिला बालविकास कटनी	9424957749	mp govt
	रमेश मिश्रा	डिप्टी रजर	वन विभाग	9424916284	mp govt
6719	एस एल कोरी	अनुविभागीय अधिकारी	पी०एस०डी० कटनी	9752338557	mp govt
37518	सदीप मिश्रा	बी ए सी	जनपद शिक्षाकेन्द्र विंगड०	9981597394	mp govt
37403	अनिल त्रिपाठी	बी ए सी	जनपद शिक्षाकेन्द्र विंगड०	9575241482	mp govt
188282	अमिता सेन गुप्ता	ब्लाक समन्वयक अधिकारी	जनपद पांचायत विंगड०	9424726724	mp govt
312553	संजय जैन	कार्यपालन यंत्री	कटनी विकास प्राधिकरण	9926000942	mp govt
7248	अरुण मसराम	सहायक आयुक्त	सहकारिता	9911959018	mp govt
99532	राजेश महोदिया	उपयंत्री	जनपद पांचायत कटनी	9424676052	mp govt
124975	नीरज तनुवाय	उपयंत्री	जनपद पांचायत कटनी	8878228082	mp govt
16267	रमाकांत गुमास्ता	पी०सी०ओ	जनपद पांचायत कटनी	9617308422	mp govt
179519	विजय शंभु कुलकर्णी	सहायक कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	8247723375	central govt
179606	हेमन्त कुमार नीना	सहायक कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	986899494	central govt
	इरसाद अन्सारी	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	958996695	central govt
180151	ज०पी०उडके	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9827561579	central govt
32373	सुरीश कुमार पटेल	बी०ए०सी०	जनपद शिक्षा केन्द्र डीमरखेडा	9009841992	mp govt
31535	अमनप्रकाश दाहिया	बी०ए०सी०	जनपद शिक्षा केन्द्र डीमरखेडा	8839769171	mp govt
59207	मुरेश कुमार पन्डोलिया	सी०ए०सी०	जनपद शिक्षा केन्द्र डेडवारा	9713561616	mp govt
58776	अरुण सिंह परिहार	सी०ए०सी०	जनपद शिक्षा केन्द्र डेडवारा	7987071319	mp govt
72328	मनीष तिवारी	भारतीय	जनपद शिक्षा केन्द्र डेडवारा	79955109	mp govt
181829	सचिन आर्या	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	7869907646	central govt
181909	राजेश्वर स्वामी	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	8824229478	central govt
181747	शिव कुमार शिवहरे	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	9926050486	central govt
181206	मो. फैयाज	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	7987571499	central govt
181556	शिवशंकर कुमार	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	8006620154	central govt

182111	अभिषेक जिन्हा	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक	आयुध निर्माणी कटनी	8802830100	central govt
370707	नेतराम खटीक	उपयंत्री	प्रधान मंत्री सड़क विकास प्राधिकरण कटनी	9893206287	mp govt
23246	मनीष सिंह गोताम	सीएसी	जनशिक्षका केंद्र रीठी	9424313962	mp govt
65625	नोहन प्रसाद गुरावी	प्राचार्य	शासकीय उ.मा.वि. सिनगौडी	9303240795	mp govt
193238	ओमप्रकाश झारिया	प्रधान अध्यापक	शासकीय मा.शाला छपरा स्लीननाबाद	9893474838	mp govt
61154	सुंदरलाल साकेत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	विजयघाट	9754706555	mp govt
62453	अमर सिंह रेमा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	विजयघाट	8120260007	mp govt
132540	अजय कुमार रहतेकर	प्रधान मंत्री सड़क विकास प्राधिकरण कटनी	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9981302004	mp govt
44058	आर.के. भार्गव	उपयंत्री	डब्ल्यू.आर.डी. बरही	9630485503	mp govt
769733	देवेन्द्र कुमार रजकवर्ती	मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य विभाग कटनी	9669022669	mp govt
30174	श्रीलाल मरावी	प्रशिक्षण	आईटीआई बहारबंद	9407812599	mp govt
40071	नीलेश कुमार सिंह	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम कटनी	9893117343	mp govt
320930	सुरेश कौरव	वाणिज्य निरीक्षक	वाणिज्य विभाग कटनी	8319720394	mp govt
44068	राजकुमार हल्दकार	ग्रामीण संघर्षात अधिकारी	उद्यानकी विभाग	9229455697	mp govt
7862	गीतेश मेहरा	सहकारी निरीक्षक	सहकारिता विभाग	9340710983	mp govt
127602	श्याम सुन्दर अहवाल	उपयंत्री	नर्मदा विकास विभाग - 3	9753438698	mp govt
105562	इंदु नाथ खोसरे	उपयंत्री	दायी तट	9425089353	mp govt
105142	रमेश प्रसाद अहिरवार	उपयंत्री	नर्मदा विकास विभाग	9752798857	mp govt
354260	नवीन कुमार श्रीवास्तव	उपयंत्री	प्रधान मंत्री सड़क विभाग	9479961379	mp govt
22303	सुरज राजोरिया	संभागीय लेखापाल	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	8435581335	mp govt
43151	दीपक सिंह परमार	संभागीय लेखापाल	जल संचयन विभाग कटनी	9411832096	mp govt
107041	सुरेश कुमार उके	संभागीय लेखापाल	नर्मदा घाटी विकास कटनी	8461810118	mp govt
104033	सामरतन झारिया	अनुसंधक	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9165113868	mp govt
101592	सनत कुमार मौतम	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9424333314	mp govt
102010	ओंकार प्रसाद कोरी	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	7566849361	mp govt
102414	राजकुमार कोरी	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9424302836	mp govt
102885	प्रकाशचंद्र स्वर्णकार	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9753204151	mp govt
103324	राममोहायण छपरिया	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9993377271	mp govt
126228	जुगलकिशोर झुमा	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9424306757	mp govt
26779	रामरखन झाहिया	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9869221888	mp govt
127167	तुलाराम राज	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9424912049	mp govt
127862	धर्मपाल दुफार	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9828440749	mp govt

128994	अजीव कुमार सक्सेना	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9424913519	mp govt
129525	दीपक कुमार दुबे	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9713970970	mp govt
130055	रामप्रकाश चौबे	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास कटनी	9424884297	mp govt
135041	प्रवीण कुमार शर्मा	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	7987527430	mp govt
135746	शमकुमार प्रजापति	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9425776297	mp govt
136217	शंकर लाल दांडेकर	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9424925796	mp govt
136584	हरिकृष्ण अहिरवार	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9926629622	mp govt
137032	हिमेश प्रसाद लाल	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9584287512	mp govt
137566	कमल किशोर सोनकर	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9301124093	mp govt
128646	नारायण प्रसाद सोनी	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	8889322493	mp govt
130243	राजू बामलिया	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9752222751	mp govt
132060	महेन्द्र कुमार जैन	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9669984280	mp govt
132857	सुरेश चंद्र जैन	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9424358122	mp govt
133577	समल लाल जाबरे	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	8718007180	mp govt
7777	प्रमोद कुमार प्यासी	उपयंत्री	नर्मदा विकास संभाग 05	9630585857	mp govt
8586	अनिल चुमलक	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	9753735167	mp govt
7498	बद्रीप्रसाद चकवर्ती	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	9425473039	mp govt
7658	महेश प्रसाद पाठक	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	9993776508	mp govt
8218	विमेश कुमार उडुके	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	8357807974	mp govt
8691	रजीव चकवर्ती	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	8827663045	mp govt
7974	दिनेश कुमार इनवाती	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	8959750107	mp govt

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-जबलपुर, मध्यप्रदेश

क. 485-लोक समा.निर्वा.-2019

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2019

लोक समा निर्वाचन-2019
(विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रादत्त करने बाबत पुनः प्रस्ताव)
जिले का नाम-जबलपुर

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / सर्वग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रादत्त की जाना प्रस्तावित है
1	श्री मुकेश तिवारी	कार्य. अभि.(सि.)	कार्या. मुख्य अभि. (सिविल अभि.) मप्रपॉजनकॉलि., जबलपुर	विद्युत यांत्रिकी सेवाएं	सम्पूर्ण जिला जबलपुर
2	श्री रामकांत गुप्ता	अधी.अभि.(सि.)	जलवि. संघा. एवं सर्व अन्ये., मप्रपॉजनकॉलि. नयागाव, जबलपुर	विद्युत यांत्रिकी सेवाएं	--"---
3	श्री पुरुषोत्तम तिवारी	कार्य. यंत्री. (जल)	कार्य. यंत्री. (जल), नगर निगम जबलपुर	नगरीय सेवाएं	--"---
4	श्री पी.एन. दुबे	सहायक अभियंता	कार्या. मुख्य अभियंता (परि. उत्पादन) म.प्र. पॉ. ज. क. लिमि., जबलपुर	विद्युत यांत्रिकी सेवाएं	--"---
5	श्री एम.के. मित्तल	अधीक्षण यंत्री	म.प्र. पॉवर ट्रंसमिशन कम्पनी कार्या. मुख्य अभियंता, मां.संसा. एवं प्रशा.) म.प्र. पॉवर ट्रंसमिशन कम्पनी लिमि. जबलपुर	विद्युत यांत्रिकी सेवाएं	--"---
6	श्री डी.एस. मिश्रा	अधीक्षण यंत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण, सिविक सेन्टर, जबलपुर	नगरीय सेवाएं	--"---
7	डॉ. एस.एस. अटकरे	असोसिएट प्रोफेसर	अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर	पशु चिकित्सा सेवाएं	--"---
8	श्री विजय कुमार वर्मा	सहायक अनुसंधान अधिकारी	कार्यालय उपसंचालक मिट्टी एवं धातु परीक्षण संभाग पचपेढी सिविल लाइन जबलपुर	राज्य सेवा सर्वग	--"---

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / सर्वग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
9	श्री दीपक सोनी	सहायक यंत्री	कार्यालय सर्वेक्षण अनुसंधान मण्डल पंचपेढी जबलपुर	राज्य सेवा सर्वग	--"--
10	श्री शैलन्द्र कुमार सचान	उपसंचालक	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, आधारताल	ग्रामीण सेवाएं	--"--
11	श्री संदीप कुमार वाण्योय	बीमा चिकित्सा अधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी कर्म. कांचधर, जबलपुर	चिकित्सा सेवाएं	--"--
12	श्री मुकेश वर्मा	सहायक मू सर्वे0अधिकारी	सहायक मू-सर्वेक्षण अधिकारी आधारताल	राज्य सेवा सर्वग	--"--
13	डॉ. एस.सी. रायकवार	जे.डी.व्ही.एस.	संयुक्त संचालक पशु पालन विभाग जबलपुर	पशु चिकित्सा सेवाएं	--"--
14	श्री देवेन्द्र कुमार व्यास	अधीक्षण यंत्री	नगर पालिका परिषद, सिहोरा	नगरीय सेवाएं	--"--
15	श्री अरुण कुमार बुधोलिया	कार्यपालन अभियंता	मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.) म. प्र पा ट्र. रामपुर	विद्युत यांत्रिकी सेवाएं	--"--
16	श्री प्रभात श्रीवास्तव	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण अभियंता कार्यालय (संचा.संध. जल विद्युत म.प्र.पा.ज.क.लि.)	विद्युत यांत्रिकी सेवाएं	--"--
17	श्री कृष्ण कुमार चौधरी	आयुष चिकित्सा अधिकारी	जिला आयुष अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, जबलपुर	राज्य सेवा सर्वग	--"--
18	श्री सुरेश कुमार राठौर	सहायक संचालक	सहायक संचालक उद्यान, प्रक्षेत्र, लखनवाडा, जिला-जबलपुर	राज्य सेवा सर्वग	--"--

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / सवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
19	डॉ सौरभ गुप्ता	पशु चिकित्सा सहायक	समुक्त संचालक विटनरी जबलपुर	पशु चिकित्सा सेंवारं	--"
20	मो0 ईरशाद खान	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालक निदेशक (अभियांत्रिकी) म प्र पा ज कं लि, रामपुर, जबलपुर	विद्युत यांत्रिकी सेवारं	--"

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क. 2723-सा.ले.-लो.स.निर्वा.-2019

खरगोन, दिनांक 12 मार्च 2019

28 लोकसभा निर्वाचन खण्डवा विधानसभा 181 भीकनगांव 2019

सेक्टर अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 181-भीकनगांव जिला खरगोन (म.प्र.)

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

अनु. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम				
	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेश चन्द्र गुप्ता	सह प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन	द्वितीय श्रेणी	1
2	श्री राम अवतार तिवारी	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक 19 भीकनगांव	प्रथम श्रेणी	2
	केलाशसिंह	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक 19 भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	3
	दीप शर्मा	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक 19 भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	4
	कृष्णदयाल शर्मा	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुख्यालय भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	5
6	श्री कैलाशचंद्र तिरौले	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खरगोन मुख्यालय भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	6
7	श्री अमर सिंह वर्मा	सहायक अनुसन्धान अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी न.वि.गुणवत्ता नि.उप संभाग 3 सनावद	द्वितीय श्रेणी	7
8	श्री श्याम सुन्दर राउत	कार्यपालन यंत्री	मुख्य अभियंता इंदिरा सागर परियोजना सनावद	प्रथम श्रेणी	8
9	श्री रामगोपाल दशारे	वनक्षेत्रपाल	वन परिक्षेत्र अधिकारी सनावद	द्वितीय श्रेणी	9
10	श्री मोहन कटारा	उप वनमंडलाधिकारी	वनमंडल खरगोन मुख्यालय भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	10
11	श्री विनोद गंगवाल	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग खरगोन मुख्यालय भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	11
12	श्री हरीश कुमार कानपुरी	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	12
13	श्री शुभम हुबे	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	13

अनु. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम				क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	
14	श्री अजय कुमार मंडलोई	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक २४ खरगोन	द्वितीय श्रेणी	14
15	श्री महेशकुमार सिंह	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 21 सनावद	द्वितीय श्रेणी	15
16	श्री उपेन्द्र शुक्ला	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक 18 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	16
17	श्री यू.एस. बघेल	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	17
18	श्री चन्द्रशेखर महाजन	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	18
19	श्री मोहन सिंह गरवाल	प्राचार्य	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरगोन	प्रथम श्रेणी	19
20	श्री सुमेरसिंह मुकाती	प्राचार्य	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खरगोन	प्रथम श्रेणी	20
21	श्री योगेन्द्र पाठक	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नहर संभाग 18 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	21
22	श्री राजेश केरावत	बाल विकास परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	22
23	श्री दीपक मालवीया	सहायक संचालक	उपसंचालक कृषि खरगोन	द्वितीय श्रेणी	23
24	श्री टी. एस. मण्डलोई	सहायक संचालक	उपसंचालक कृषि खरगोन	द्वितीय श्रेणी	24
25	श्री विजेन्द्रसिंह चौहान	सहायक यंत्री	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	25
26	श्री मोहम्बत सिंह बघेल	सहायक वाणिज्यिककर अधिकारी	वाणिज्यिक कर कार्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	26
27	श्री आलोक जैन	सहायक अभियंता	नर्मदा विकास घाटी सनावद	द्वितीय श्रेणी	27
28	सुश्री निर्मला वर्मा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना झिरन्या	द्वितीय श्रेणी	28
29	श्री विवेक वासुदेव पाध्ये	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नहर विभाग गुणवत्ता सभाग क्र. 1 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	-
30	श्री एन.पी. साहु	शाखा प्रबंधक	दूग्ध उत्पादन एवं विपणन खरगोन	द्वितीय श्रेणी	-
31	श्री अरविन्द चौहान	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग मुख्यालय भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	-

28 लोकसभा निर्वाचन खण्डवा विधानसभा 182 बड़वाह 2019
सेक्टर अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 182-बड़वाह जिला खरगोन (म.प्र.)
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

सेक्टर अधिकारी का नाम					क्षेत्र जिसके लिए
अ.क्र.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना
1	2	3	4	5	6
1	गोविन्द वास्कले	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	1
2	श्री सुनील शर्मा	प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह	प्रथम श्रेणी	2
3	श्री अरविन्द श्रीवास्तव	प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह	प्रथम श्रेणी	3
4	श्री मणिशंकर डांगरे	प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय सनावद	प्रथम श्रेणी	4
5	श्री संजय चौबे	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महेश्वर	द्वितीय श्रेणी	5
6	श्री अनिल कुमार जैन	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास परियोजना बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	6
7	श्री संजयकुमार टंडन	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्रमांक 32 बड़वाह	प्रथम श्रेणी	7
8	श्री धीरेन्द्रकुमार बिजोरिया	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्रमांक 32 बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	8
9	श्री संदीप श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्रमांक 32 बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	9
10	सुश्री विद्या फुलमाली	सहायक यंत्री	सहायक यंत्री, (विद्युत सुरक्षा) बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	10
11	श्री दीपक कुमार खटके	अधीक्षण अभियंता	अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास मंडल क्रमांक ११ खेड़ीघाट	प्रथम श्रेणी	11
12	श्री ललित कुमार वर्मा	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन	प्रथम श्रेणी	12

अ.कं.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य
	नाम	पद	कार्यालय का नाम		पालक दण्डाधिकारी की शिक्तयां प्रदत्त की जना
1	2	3	4	5	6
13	श्री सुन्दरलाल गोले	सहायक अध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	13
14	श्री संदीप कुमार पाठक	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक २४ खरगोन	प्रथम श्रेणी	14
15	श्री कव्हेर प्रसाद बागरी	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 21 सनावद	प्रथम श्रेणी	15
16	श्री भरोसीराम गौड़	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक ८ सनावद	द्वितीय श्रेणी	16
17	श्री विमल कुमार जैन	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक ८ सनावद	द्वितीय श्रेणी	17
18	श्री सुशीलचन्द्र जयसवाल	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	18
19	श्री सरबन सिंह	अधीक्षण अभियंता	अधीक्षण यंत्री न.वि. संमंडल -1 सनावद	प्रथम श्रेणी	19
20	श्री चंद्र दत्त शुक्ला	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण संभाग, सनावद	प्रथम श्रेणी	20
21	श्री राजेश सिंह मण्डलोई	कार्यपालन यंत्री	अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास मंडल क्रमांक 8 सनावद	प्रथम श्रेणी	21
22	श्री हर्ष कुमार मेहता	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 21 सनावद	द्वितीय श्रेणी	22
23	श्री कमलकिशोर सोलंकी	सहायक यंत्री	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	23

अ.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शिक्षता प्रदत्त की जाना
	नाम	पद	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
24	श्री आर.सी. बेलकर	प्राचार्य	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सनावद	प्रथम श्रेणी	24
25	श्री के.के. गाडगे	विभागाध्यक्ष	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सनावद	प्रथम श्रेणी	25
26	श्री मनदीप सुराली	विभागाध्यक्ष	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सनावद	प्रथम श्रेणी	26
27	श्री हरीश हरदेनिया	बाल विकास परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना सनावद	द्वितीय श्रेणी	27
28	श्री मगन सिंह डाबर	उप वनमंडलाधिकारी	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	28
29	श्री महेश शर्मा	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	29
30	श्री रमेश कुमार औचट	सहायक अध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	30
31	श्री राकेश कुमार गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री नण्विणसण्21 सनावद	प्रथम श्रेणी	31
32	श्री प्रतीक मुकाती	सहायक यंत्री	मुख्य अभियंता इंदिरा सागर परियोजना सनावद	द्वितीय श्रेणी	-
33	श्री डी.के.शुक्ला	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	-
34	श्री राहुल पवार	सहायक यंत्री	नगर पालिका सनावद	द्वितीय श्रेणी	-

27 लोकसभा निर्वाचन खरगोन विधानसभा 183 महेश्वर (अजा) 2019
सेक्टर अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 183- महेश्वर (अजा) जिला खरगोन (म.प्र.)
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

अ.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजकुमार सराफ	सहायक संचालक	जिला हाथकरघा एवं प्रशिक्षण केंद्र महेश्वर	द्वितीय श्रेणी	1
2	श्री एस.एल. पुनवारे	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन	प्रथम श्रेणी	2
3	श्री गुलाबचंद पाटीदार	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न. वि.संभाग क. 20 मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	3
4	श्री सिद्धाथ सिंह चौहान	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न. वि.संभाग क. 20 मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	4
5	श्री अशोक कुमार अहिरवार	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न. वि.संभाग क. 20 मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	5
6	श्री एम.एल.वास्केल	उप संचालक	परियोजना संचालक आत्मा जिला खरगोन	प्रथम श्रेणी	6
7	श्री कारूलाल ररोतिया	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महेश्वर	द्वितीय श्रेणी	7
8	श्री भगवानदास खण्डेलवाल	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	8
9	श्री एन.डी. उटवाल	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न0वि0संभाग क्रमांक 24 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	9
10	श्री दिनेशचन्द्र पाटील	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महेश्वर	द्वितीय श्रेणी	10
11	श्री दिनेश फरक्या	महाप्रबंधक	मण्प्रण् ग्राम् सडक विकास इकाई .1	प्रथम श्रेणी	11
12	श्री वी.एस. चौहान	सहायक प्रबंधक	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग	द्वितीय श्रेणी	12
13	श्री पी.एस.धार्वे	सहायक यंत्री	पी.आइ.यू. इन्दौर मप्र अर्बन डेवलपमेन्ट मुख्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	13

अ.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं
	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
14	श्री परसराम सेन	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक २४ खरगोन	द्वितीय श्रेणी	14
15	श्री रोहित मालवीय	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 21 सनावद	द्वितीय श्रेणी	15
16	श्री विक्रमसिंह सोलंकी	उपवनमण्डलाधिकारी	वन मण्डल मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	16
17	श्री सुभाष भालेराव	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 20 मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	17
18	श्री के.आर.अवासे	ऑडिटर आफिसर	सहकारिता विभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	18
19	श्री राजगुरु पाटीदार	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	19
20	श्री विजय कुमार देवांगन	सहायक प्रबंधक	संत रविदास मण्प्रणु हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास	द्वितीय श्रेणी	20
21	श्री बी.के. महाजन	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग उप मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	21
22	श्री राजेश कुमार शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	अनुविभागीय अधिकारी कृषि उपसंभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	22
23	श्री गणेश प्रसाद दावरे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	23
24	श्री आकाशसिंह परिहार	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	24
25	श्री भूरालाल बिलवे	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर	प्रथम श्रेणी	25
26	श्री सागरसिंह ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	26
27	श्री कोशल किशोर तलैया	अधीशासी अभियंता	नर्मदा विकास घाटी मण्डलेश्वर संभाग क्र 20	प्रथम श्रेणी	27

अ.क्र.	सकटर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
28	श्री राजेश कुमार शर्मा	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक 8 सनावद	द्वितीय श्रेणी	28
29	प्रकाश ठाकुर	सहायक संचालक	उप संचालक कृषि खरगोन	द्वितीय श्रेणी	29
30	श्री रमेश चौहान	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	-
31	श्री जगदेवसिंह चौहान	वरिष्ठ उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग उप संभाग बड़वाह	द्वितीय श्रेणी	-
32	श्री दिलीप कुमार मंहत	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर	द्वितीय श्रेणी	-

27 लोकसभा निर्वाचन खरगोन विधानसभा 184 कसरावद 2019
सेक्टर अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 184 कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

अ.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
1	श्री किशोर गुप्ता	सहायक प्रबंधक	प्रधामंत्री ग्रामीण सड़क प्राधिकरण परियोजना महेश्वर	द्वितीय श्रेणी	1
2	श्री भारतसिंह सोलंकी	सहायक संचालक	प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र सत्राटी	द्वितीय श्रेणी	2
3	श्री लव प्रदीप गौड़	सहायक अभियंता	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक ८ सनावद	द्वितीय श्रेणी	3
4	श्री राजकुमार छटवानी	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन संभागीय परियोजना यंत्री खरगोन	द्वितीय श्रेणी	4
5	श्री प्रफुल देशपाण्डे	जिला प्रबंधक	म.प्र. राज्य क.उ.वि. नि. खरगोन	द्वितीय श्रेणी	5
6	श्री अनिल मरमट	सहायक यंत्री	संभागीय परि. यंत्री क्रियान्वयन इकाई खरगोन (लो.नि.वि.पी.आइ.यु.)	द्वितीय श्रेणी	6
7	श्री मानसिंह ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	अनुविभागीय अधिकारी कृषि उपसंभाग महेश्वर	द्वितीय श्रेणी	7
8	श्री कृष्ण कुमार गिरवाल	उप संचालक	उप संचालक उद्यान खंडवा रोड खरगोन	प्रथम श्रेणी	8
9	श्री मेहताब सिंह सोलंकी	सहायक संचालक	प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र सत्राटी	द्वितीय श्रेणी	9
10	श्री शांतिलाल पेंवार	सहायक संचालक	प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र सत्राटी	द्वितीय श्रेणी	10
11	श्री मदनसिंह कनास	सहायक संचालक	प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र सत्राटी	द्वितीय श्रेणी	11
12	श्री प्यारसिंह चौहान	सहायक संचालक	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास महर संभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	12
13	श्री लखन सिंह सोलंकी	सहायक अभियंता	कार्यपालन यंत्री न.वि.गुणवत्ता संभाग क्रमांक 1 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	13

अ.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
14	श्री उमाकांत पटसारीया	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक २४ खरगोन	प्रथम श्रेणी	14
15	श्री शैलेन्द्र पांडेय	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 21 सनासद	द्वितीय श्रेणी	15
16	श्री अभय कुमार शुक्ला	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नहर संभाग 18 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	16
17	श्री शिवराम सोलंकी	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल उपखण्ड खरगोन	द्वितीय श्रेणी	17
18	श्री संतोष श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खरगोन	प्रथम श्रेणी	18
19	श्री बाबूलाल मंडलोई	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक 18 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	19
20	श्री हरजिंदर सिंह अरोरा	सहायक संचालक	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	20
21	श्री फतेसिंह निमामा	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग	द्वितीय श्रेणी	21
22	श्री पुरुषोत्तम नगदेया	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नहर संभाग 24 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	22
23	श्री पियूष सोलंकी	सहायक संचालक	उपसंचालक कृषि खरगोन	द्वितीय श्रेणी	23
24	श्री गोपाल डावर	सहायक संचालक	उपसंचालक कृषि खरगोन	द्वितीय श्रेणी	24
25	श्री गजेन्द्र सिंह चौहान	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय कसरावद	द्वितीय श्रेणी	25
26	श्री संतोष सिंह परमार	सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति कसरावद	द्वितीय श्रेणी	-
27	श्री जगदीश चंद्र चौबे	अनुभाग अधिकारी	म.प्र.प.क्षे.विवि.के. लि	द्वितीय श्रेणी	-
28	डॉ अजय पाटीदार	सहायक संचालक	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं खरगोन	द्वितीय श्रेणी	-

27 लोकसभा निर्वाचन खरगोन विधानसभा विधान सभा 185 खरगोन 2019
 सेक्टर अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 185- खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.)
 विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

अ.कं.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जायें
	नाम	पद	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेश कुमार चन्द्रवशी	वरिष्ठ उपयंत्री	जिला भूजल सर्वेक्षण इकाई क्रं.- 16 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	1
2	श्री महेन्द्र कुमार गोखले	प्राचार्य	शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन	प्रथम श्रेणी	2
3	श्री राजाराम आर्य	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	3
4	श्री एम.एल. पारस	सहायक प्रबन्धक	प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना खरगोन	द्वितीय श्रेणी	4
5	डॉ एस.के. पाठक	सहायक संचालक	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं खरगोन	द्वितीय श्रेणी	5
6	श्री ताराचन्द्र मेहरा	सहायक संचालक	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास खरगोन	द्वितीय श्रेणी	6
7	सुश्री चंचल अग्रवाल	प्रबन्धक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन	द्वितीय श्रेणी	7
8	श्री आर.एस.डाबर	प्रबन्धक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन	द्वितीय श्रेणी	8
9	श्री अशोक कुमार गुप्ता	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	9
10	श्री आर.डी. फ्रैंकलिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खरगोन	द्वितीय श्रेणी	10
11	श्री भवर्लाल शाक्यवंशी	महाप्रबन्धक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन	प्रथम श्रेणी	11

अ.कं.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जायेंगी
	नाम	पद	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
12	श्री फुलचंद बिरला	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन	प्रथम श्रेणी	12
13	श्री व्ही.पी. भगोरा	अधीक्षण यंत्री	जल संसाधन संभाग खरगोन	प्रथम श्रेणी	13
14	श्री बी.एल.जमरा	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक २४ खरगोन	द्वितीय श्रेणी	14
15	श्री शैलेन्द्र जोशी	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 21 सनावद	द्वितीय श्रेणी	15
16	श्री जानेश्वर काथवटे	सहायक प्रबन्धक	म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित खरगोन	द्वितीय श्रेणी	16
17	श्री राधेश्याम बडोले	सहायक संचालक	उप संचालक कृषि खरगोन	द्वितीय श्रेणी	17
18	श्री जगदीश प्रसाद लडिया	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा विकास संभाग 18 खरगोन	प्रथम श्रेणी	18
19	श्री एस.के. अग्रवाल	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री सेत खरगोन	द्वितीय श्रेणी	19
20	श्री डी.के.कोरी,	सहायक यंत्री	अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खरगोन	द्वितीय श्रेणी	20
21	सुश्री मोनिका बघेल	सहायक संचालक	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय श्रेणी	21
22	श्री शैलेन्द्रसिंह ठाकुर	कार्यपालन यंत्री	मण्डी बोर्ड, कृषि उपज मण्डी मुख्यालय खरगोन	प्रथम श्रेणी	22
23	श्री सत्यभान सिंह भदोरीया	सहायक मिट्टी परीक्षण अधि.	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी खरगोन	द्वितीय श्रेणी	23

अ.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जायेंगी
	नाम	पद	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
24	डॉ दिनेश सिसोदिया	सिविल सर्जन	पशु चिकित्सालय खरगोन	प्रथम श्रेणी	24
25	श्री राजेन्द्रसिंह चौहान	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	25
26	श्री बनेसिंह बलोदिया	सहायक यंत्री	कृषि यांत्रिकी खरगोन	द्वितीय श्रेणी	26
27	श्री मायाराम पटेल	सहायक यंत्री	सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक वि. निरीक्षक खरगोन	द्वितीय श्रेणी	27
28	श्री कमलचंद कैथवास	सहायक प्राध्यापक	शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	28
29	श्री राजेन्द्र कुमार महाजन	अनुभाग अधिकारी	अधीक्षण यंत्री, म.प्र.प.के.वि.वि.क. लि. खरगोन	द्वितीय श्रेणी	-
30	श्री शम्भुसिंह मनहर गौड	प्राध्यापक	शा महा विद्यालय खरगोन	प्रथम श्रेणी	-
31	श्री मुकेश कुमार बाबूराव बार्च	प्रबंध संचालक	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन	प्रथम श्रेणी	-

27 लोकसभा निर्वाचन खरगोन विधानसभा 186 भगवानपुरा (अजजा) 2019

सेक्टर अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 186- भगवानपुरा (अजजा) जिला खरगोन (म.प्र.)

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

अ.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
	नाम	पद	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
1	श्री योगेन्द्र कुमार जैन	वरिष्ठ वैज्ञानिक	आच. क.अनु.केन्द्र खरगोन	प्रथम श्रेणी	1
2	श्री बासीराम मजालदे	महिला सश.अधिकारी	महिला एवं बाल विकास परि. सेगांव	द्वितीय श्रेणी	2
3	श्री ओमप्रकाश बनडे	जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केन्द्र खरगोन	द्वितीय श्रेणी	3
4	श्री सी.एल.राठौर	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.स.क्र.18	द्वितीय श्रेणी	4
5	श्री विजय कुमार कोल्हे	सहायक यंत्री	जल संसाधन संभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	5
6	श्री लक्समन	सहायक यंत्री	अनु.अ. जल संसाधन अनुविभाग सेगांव	द्वितीय श्रेणी	6
7	श्री मुकामसिंह भंवर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर	द्वितीय श्रेणी	7
8	श्री भागीरथ रायक	जिला प्रोढ शिक्षा अधिकारी	जिला प्रोढ शिक्षा अधिकारी खरगोन	द्वितीय श्रेणी	8
9	श्री एस.सी. सोनी	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.स.क्र.18	द्वितीय श्रेणी	9
10	श्री रविन्द्र बर्वे	प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	10
11	श्री रविन्द्र रावल	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	11
12	श्री सजीव वर्मा	वैज्ञानिक	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर	प्रथम श्रेणी	12
13	श्री अरुण रंगनाथ खीरे	वरिष्ठ वैज्ञानिक	आच. क.अनु.केन्द्र खरगोन	प्रथम श्रेणी	13
14	श्री सुनील मोरे	बाल विकास परि. अधिकारी	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्रमांक	द्वितीय श्रेणी	14
15	श्री छगनसिंह मूवेल	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. 21 सनावद	द्वितीय श्रेणी	15
16	श्री सुनील कुमार त्यागी	वैज्ञानिक	आच. क.अनु.केन्द्र खरगोन	प्रथम श्रेणी	16

अ.कं.	सेक्टर अधिकारी का नाम			सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्य पालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
	नाम	पद	कार्यालय का नाम		
1	2	3	4	5	6
17	श्री राजीव कुमार सिंह	वैज्ञानिक	आंच. क. अनु. केन्द्र खरगोन	प्रथम श्रेणी	17
18	श्री संतोष जायसवाल	अनु. वि. अधिकारी	म. प्र. गृह निर्माण मण्डल खरगोन	द्वितीय श्रेणी	18
19	श्री पवन मरकाम	अनु. वि. अधिकारी	म. प्र. गृह निर्माण मण्डल खरगोन	द्वितीय श्रेणी	19
20	श्री राजेन्द्र गोयल	जिला उर्जा अधिकारी	जिला उर्जा विभाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	20
21	श्री दिपक सिंह पचलईया	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खरगोन	द्वितीय श्रेणी	21
22	श्री भगवानसिंह वर्मा	वनक्षेत्रपाल	वनमण्डल खरगोन	द्वितीय श्रेणी	22
23	सुश्री निता बारिया	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग खरगोन	द्वितीय श्रेणी	23
24	डॉ. राजेन्द्र कुमार यादव	सहायक प्राध्यापक	शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन	द्वितीय श्रेणी	24
25	श्री वासुदेव आसलकर	जिला आयुष अधिकारी	जिला आयुष अधिकारी खरगोन	प्रथम श्रेणी	25
26	श्री रामसिंह परमार	सहायक अनुसन्धान अधिकारी	कार्यपालन यंत्री न. वि. गु. नियंत्रण संभाग क्र. 1 खरगोन	द्वितीय श्रेणी	26
27	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी जल	द्वितीय श्रेणी	27
28	श्री यादवेन्द्र सिंह	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री गा. स. योजना खरगोन	द्वितीय श्रेणी	28
29	श्री आर. आर. बिसारिया	वरिष्ठ उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री न. वि. स. क्र. 18	द्वितीय श्रेणी	29
30	सुश्री मीना कानपुरी	महिला सश. अधिकारी	महिला एवं बाल विकास परि. शहरी खरगोन	द्वितीय श्रेणी	-
31	सुश्री पल्लवी लिलोतिया	महिला सश. अधिकारी	एकी. महिला एवं बाल विकास परि. भीकनगांव	द्वितीय श्रेणी	-
32	श्रीमति रूपरेशम वास्कले	उप परियोजना संचालक आत्मा	परियोजना संचालक आत्मा खरगोन	द्वितीय श्रेणी	-